



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1978/फाल्गुन 10, 1899

No. 66]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1978/PHALGUNA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1978

सीमाशुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st March, 1978

CUSTOMS

सं० का० भि० 88 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 32.04/12 के अन्तर्गत आने वाले कांच पाउडर को, जब उसका ट्रान्जिस्टर हैडर के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्घटनीय सीमाशुल्क के उन्ने भाग से छूट देनी है जितना 45 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर द्वारा विहित प्रारूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह संबंधित कांच पाउडर की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं किया गया है कि वह ट्रान्जिस्टर हैडर के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, माग किए जाने पर, उन्नी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न किए जाने की दिशा में उस पर उद्घटनीय शुल्क और आयातकरण के समय संवत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

G.S.R. 88(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts glass powder, falling under Heading No. 32.04/12 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of Transistor Headers, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the glass powder in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of Transistor Headers an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

[सं० 34/फा०सं० बजट (सी०शु०)/78]

[No. 34/F. No Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 89(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 229-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “मेटेलाइज्ड या प्लेन प्लास्टिक फिल्म” शब्दों के स्थान पर, जो दो जगहों पर आए हैं, “मेटेलाइज्ड या प्लेन प्लास्टिक फिल्म जो मेटेलाइज्ड या प्लेन पालीप्रोपीलीन फिल्म से भिन्न हो” शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 35/का०सं० बजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 89(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 229-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the said notification, for the words “metallised or plain plastic film”, in the two places where they occur, the words “metallised or plain plastic film other than metallised or plain polypropylene film” shall be substituted.

[No. 35/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 90(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 39 के अन्तर्गत आने वाली मेटेलाइज्ड या प्लेन पालीप्रोपीलीन फिल्म की, जब उसका कैपेसिटर के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए,—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 75 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं की इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह सम्बन्धित मेटेलाइज्ड या प्लेन पालीप्रोपीलीन फिल्म की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह भावित नहीं किया गया है कि वह कैपेसिटर के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, मांग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के मध्य संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

[सं० 36/का०सं० बजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 90(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts metallised or plain polypropylene film, falling within chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of capacitors, from—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 75 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the metallised or plain polypropylene film in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of capacitors an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that at the time of importation.

[No. 36/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 91(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 के अन्तर्गत आने वाले संधारित्र टिश्यू कागज और विद्युत ग्रेड के रोधी कागज को, जब भारत में उसका आयात किया जाए,—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 75 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

[सं० 37/का०सं० बजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts condenser tissue paper and Electrical grade Insulation Paper, falling within Chapter 48 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 75 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act.

[No. 37/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमा शुल्क

सां. कां. निं. 92(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 239—सीमा शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिकांत करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को जो टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 51 01/03 या शीर्ष सं० 56.05/06 के अन्तर्गत आती है, जब भारत में उनका आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वस्तु का नाम	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	पोलिएस्टर फिलामेंट सूत, पोलिएस्टर मोनोफिल और पोलिएस्टर स्ट्रिप।	200 प्रतिशत मूलानुसार
2.	अक्रिलिक सूत, अक्रिलिक मोनोफिल और अक्रिलिक स्ट्रिप।	100 प्रतिशत मूलानुसार घन 30 रु० प्रति किलोग्राम
3.	नाइलान टायर सूत	100 प्रतिशत मूलानुसार घन 11 रु० प्रति किलोग्राम
4.	पूर्वोक्त क्रम सं० 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न वस्तुएं।	100 प्रतिशत मूलानुसार।

[सं० 38/फा०सं० बजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 92(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 239-Customs, dated the 2nd August, 1976 the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the articles specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Heading No. 51.01/03 or Heading No. 56.05/06 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Name of the article	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Polyester filament yarn, Polyester monofil and polyester strip	200 per cent ad valorem.
2.	Acrylic yarn, acrylic monofil and acrylic strip	100 per cent ad valorem plus Rs.30 per kilogram.
3.	Nylon tyre yarn	100 per cent ad valorem plus Rs.11 per kilogram.

(1) (2) (3)

4. All articles other than those specified in Sl. Nos. 1, 2 and 3 above 100 per cent ad valorem.

[No. 38/F.No. Bud (Cus)/78]

सीमा शुल्क

सां. कां. निं. 93(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 70 के अन्तर्गत आने वाले कांच के पैलेट, जब उनका ट्रांजिस्टर हेड के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए,—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 45 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक है, और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमा-शुल्क सहायक कलेक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह संबंधित कांच के पैलेट की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमा-शुल्क सहायक कलेक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं किया गया है, कि वह ट्रांजिस्टर हेड के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, माग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के समय संदत्त शुल्क के अन्त के बराबर हो।

[सं० 39/फा०सं० बजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 93(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts glass pellets, falling within Chapter 70 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of Transistor Headers, from—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the glass pellets in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of Transistor Headers an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation

[No. 39/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 94(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 84 के अन्तर्गत आने वाले और नीचे की मारणी में विनिर्दिष्ट मशीनों को, जब भारत में उनका आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्घटनीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन
1	मेज टाइप क्षैतिज जिग बोरिंग मशीन तर्कु (स्पिडल) व्यास 160 मि० मी० और उससे अधिक।
2	टूल रूम प्रेसिजन ग्राफिकल को-आर्ड जिग बोरिंग मशीन जिसमें सहायक नियंत्रण भी है।
3	धागा कर्षण मशीन।
4	स्वचलित सीधा बेवेल/हाइप्पॉइड बेवेल गेयर जनित।
5	हाइप्पॉइड बेवेल गेयर सैपर।
6	गेयर टूथ होनिंग मशीन।
7	गेयर शैविंग मशीन।
8	ग्राफिकल प्रोफाइल ग्राइडिंग मशीन।
9	स्प्लाइन्ड सैफ्ट ग्राइडिंग मशीन।
10	साइजिंग के लिए प्रेसिजन डबल डिस्क (डुप्ले) ग्राइंडर।
11	नैपियरों के रेशों को परिष्कृत करने के लिए रैमजैज सुपरफिनिशिंग मशीन।
12	आटोमेटिक फोर स्टेशन बोल्ट मेंकिंग मशीन जिसमें अधिकतम शीत ध्याम के लिए स्टेशनों के बीच स्वचलित अन्तरण यंत्रावली सहित, सभरण, कटार्ड, पर्याय और धागे डालने को सन्-व्यवस्था हो।
13	530 मि० मी० से अधिक क्षार-क्षमता वाला द्रवचालित शोत बर्तन आरा।
14	150 मि० मी० से अधिक स्त्र व्यास वाला प्लास्टिक एक्सट्रूडर।
15	सम्पूर्ण ओजोन जनित।

[स० 40/फा० सं० थजट (सी० शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R 94(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the machines specified in the table below and falling within Chapter 84 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said 1st Schedule as is in excess of 25 per cent ad valorem

TABLE

Sl. No.	Description
1.	Table type Horizontal Jig Boring machine spindle diameter 160 mm and above.
2.	Tool Room Precision Optical Co-ord. Jig Boring machine including Numerical Control
3.	Thread Grinding Machine.
4.	Automatic straight Bevel/Hypoid Bevel gear generator.
5.	Hypoid Bevel gear lapper.
6.	Gear Tooth Honing Machine.
7.	Gear Shaving Machine.
8.	Optical Profile Grinding Machine.
9.	Spline Shaft Grinding machine.
10.	Precision Double Disc (Duplex) Grinders for sizing.
11.	Raceways superfinishing machine for finishing the races of of bearings.
12.	Automatic Four station bolt making machine comprising of feeding, cutting upsetting and threading mechanism with automatic transfer mechanism between the stations for maximum shank diameter 10 mm and 16 mm.
13.	Hydraulic cold circular saw of bar capacity above 530 mm.
14.	Plastic Extruder above 150 mm screw diameter.
15.	Complete Ozone Generator.

[No. 40/F. No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 95(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की मारणी में विनिर्दिष्ट मशीनों को जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 84 के अन्तर्गत आती है और जिनकी डिजाइन परिधान उद्योग में प्रयोग के लिए की गई है, जब भारत में उनका आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्घटनीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन
1	काज की औद्योगिक गिलाई की स्वचालित मशीन।
2	बटन स्वचालित मिलाई की मशीन।
3	फ्लैट स्टिच टेकर और बटन मिलाई यंत्र।
4	लाकान्टिच टेकर और बटन मिलाई यंत्र।
5	ब्लाड्ड स्टिच मशीन।
6	एक सुई वाली, मिलिडर बैड अपर फीड ब्लाड्ड स्टिच मशीन।
7	दो सुई वाली, फ्लैट बैड लाकान्टिच औद्योगिक मिलाई मशीन।
8	एक सुई वाली, लाकान्टिच फ्लैट बैड मशीन जिसकी गति 4000 टाँके प्रति मिनट से अधिक हो।
9	एक सुई वाली, फ्लैट बैड ट्राप फीड लाकान्टिच मशीन।
10	एक सुई वाली, लाकान्टिच मशीन, जिसमें ट्रिगर लगा हो, और जिसकी गति 4000 टाँके प्रति मिनट से अधिक हो।

क्रम सं०	वर्णन
11	दो या तीन सुई वाली, दो धागे को जालोदार मिलाई करने वाली फीड-ब्राफ-डी-ग्राम मशीन ।
12	एक सुई वाली, ब्राम फीड जालोदार मिलाई की मशीन जिसकी गति 4000 टांके प्रति मिनट से अधिक हो ।
13	एक या दो सुई वाली, दो धागे की जालोदार मिलाई की टाप ऐड बाउम कवरिंग मशीन ।
14	दो धागे को जालोदार मिलाई की मशीन, 1, 2 या 3 सुई ब्राम फीड, जिसकी गति 4000 टांके प्रति मिनट से अधिक हो ।
15	एक या दो सुई वाली, जालोदार मिलाई की, ओवर एडज और सेफ्टी स्टिच मशीन ।
16	दो या तीन सुई वाली, जालोदार मिलाई की मशीन ।
17	कपड़ा काटने का स्वचालित मशीन ।
18	टाई बनाने वाली मशीन ।
19	कालर पलटने वाली और ब्लाकिंग मशीन ।
20	कफ पलटने वाली और ब्लाकिंग मशीन ।
21	कालर पलटने वाली स्वचालित मशीन ।

[सं० 41/फा० सं० बजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R/95(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts such of the machines as are specified in the Table below and falling within Chapter 84 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and are designed for use in the garment industry, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 25 per cent ad valorem.

TABLL

Sl. No.	Description
1.	Automatic Buttonhole Industrial Sewing Machine.
2.	Automatic Button Sewing Machine.
3.	Chainstitch Tacker and Button Sewer.
4.	Lockstitch Tacker and Button Sewer.
5.	Blind stitch machine.
6.	Single Needle, cylinder bed upper feed blind stitch machine.
7.	Two Needle Flat Bed Lockstitch Industrial Sewing Machine.
8.	Single Needle lockstitch Flat Bed machine of speed above 4000 stitches per minute.
9.	Single Needle Flat Bed Drop feed lockstitch machine.
10.	Single Needle Lockstitch Machine with built-in trimmer, of speed above 4000 stitches per minute.
11.	Two or three needle two thread chainstitch feed-off-the-arm machine
12.	Single needle drop feed chainstitch machine of speed above 4000 stitches per minute.
13.	Single or two needles two threads chainstitch top and bottom covering machine.

Sl. No.	Description
14.	Two thread chainstitch machine, 1, 2 or 3 needles drop feed of speed above 4000 stitches per minute.
15.	Chainstitch overedging and Safety stitch single or two needle machine.
16.	Two or three needles chainstitch machine.
17.	Automatic Cloth Cutting Machine.
18.	Tie Making Machine.
19.	Collar Turning and Blocking Machine.
20.	Cuff Turning and Blocking machine.
21.	Automatic Collar Turning Machine.

[No. 41/F. No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सार० क्र० सं० 96(अ)— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट मशीनों को जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 84 के अन्तर्गत आती है और जिनकी डिजाइन चमड़े के प्रसंस्करण और परिष्करण उद्योग में प्रयोग के लिए की गई है, जब भारत में उनका आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उनसे भाग से छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन
1.	द्रव चालित फ्लैशिंग मशीन ।
2.	द्रवचालित सैटिंग मशीन ।
3.	बैड नाइफ स्प्लिटिंग मशीन ।
4.	द्रवचालित ग्रीविंग मशीन ।
5.	स्वचालित पैडिंग मशीन ।
6.	स्वचालित ड्राइंग मशीन ।
7.	निर्यात ड्राइंग मशीन ।
8.	द्रवचालित आयरनिंग ऐड मशीन प्रेस ।
9.	चमड़ा मुद्रण के लिए रोटी प्रेस ।
10.	चमड़ा मुद्रण के लिए रोटी प्रेस के लिए उच्चित्रण प्लेटे ।
11.	चमड़ा मुद्रण के लिए रोटी प्रेस के लिए नक्काशित रोलर ।
12.	चमड़े और खाल पर स्टाम्प करने के लिए मोटर युक्त मशीनें ।

[सं० 12/फा० सं० बजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R 96(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts such of the goods as are specified in the Table below and falling within Chapter 84 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and are designed for use in the leather processing and finishing industry, when imported into India, from so much of

that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 25 per cent ad valorem.

TABLE

Sl. No.	Description
1.	Hydraulic fleshing machine.
2.	Hydraulic setting machine.
3.	Bandknife splitting machine.
4.	Hydraulic shaving machine.
5.	Automatic padding machine.
6.	Automatic drying machine.
7.	Vacuum drying machine.
8.	Hydraulic ironing and embossing press.
9.	Roto press for leather printing.
10.	Embossing plates for Roto press for leather printing.
11.	Engraved rollers for Roto press for leather printing.
12.	Motorised hides and skins stamping machine.

[No. 42/F. No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सां. कां. निं. 97(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 84.21 के अन्तर्गत आने वाली स्वचालित छिड़काव मशीनों को, जिनकी डिजाइन चमड़े के प्रसंस्करण और परिष्करण उद्योग के लिए की गई है, जब भारत में उनका आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[सं. 43/कां. सं. बजट (सी. शुं.)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 97(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts automatic spraying machine, falling under Heading No. 84.21 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (52 of 1975), and designed for use in the leather processing and finishing industry, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 25 per cent ad valorem.

[No. 43/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सां.कां.निं. 98(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उम अध्याय के, जो नीचे की गारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अन्तर्गत आने वाले माय को जो नीचे की गारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है, जब भारत में उसका आयात किया जाये, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है :

परन्तु यह तब जब सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाये कि पूर्वोक्त माल का भारत में आयात तेल की खोज के प्रयोग में लाये जाने के लिये किया गया था।

सारणी

क्रम सं०	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची का अध्याय सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	अध्याय 84	ऐसी मशीनरी और यांत्रिक साधन जिसके अन्तर्गत उनके पुर्जे और उपसाधन भी हैं किन्तु तट पर तेल वैधक रिग और उनके उपसाधन नहीं हैं।
2.	अध्याय 85	वैद्युत् मशीनरी और उपस्कर जिसके अन्तर्गत उसके पुर्जे और उपसाधन भी हैं।

[सं. 44/कां. सं. बजट (सी. शुं.)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 98(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below and falling within the chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (15 of 1975) specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when imported into India from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 25 per cent ad valorem :

Provided that it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the aforesaid goods have been imported into India for use in oil exploration.

TABLE

Sl. No.	Chapter No. of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	Chapter 84	Machinery and mechanical appliances including parts and accessories thereof but excluding on-shore oil drilling rigs and their accessories.
2.	Chapter 85	Electrical machinery and equipment including parts and accessories thereof.

[No. 44/F.No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सां.कां.निं. 99(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 85 के अन्तर्गत आने वाले ऐम्प्लीशान जनित्र को, जब भारत में उसका आयात किया जाये, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[सं. 45/कां. बजट (सी. शुं.)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 99(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Amplidyne Generator, falling within Chapter 85 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 25 per cent ad valorem.

[No. 45/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमा शुल्क

सा० का० नि० 100(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 85.05 के अन्तर्गत आने वाली हार्थ से चलाई जाने और कपड़ा काटने वाली विद्युत् कटरनी (शीयर) को, जिनकी डिजाइन परिधान उद्योग में प्रयोग के लिये की गई है, जब भारत में उसका आयात किया जाये, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[सं० 46/फा० सं० बजट(सी० शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 100(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts electric cloth cutting hand shear, falling under Heading No. 85.05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and designed for use in the garment industry, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 25 per cent ad valorem.

[No. 46/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमा शुल्क

सा० का० नि० 101(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 85.18/27 के अन्तर्गत आने वाले स्वतः आबन्धन रोधी तांबे के आवलन तार को, जब नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट दूरदर्शन अभिग्राही सक्षिप्त विक्षेपण संघटकों के विनिर्माण के लिए भारत में उसका आयात किया जाए—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 45 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है; और

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय मसत अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमा शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित प्रारूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आशंकित करता है कि वह सम्बन्धित स्वतः आबन्धन रोधी तांबे के आवलन तार की ऐसी मात्रा पर, जिसकी आवत सीमा शुल्क सहायक

कलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह ग्राहित नहीं किया गया है कि वह दूरदर्शन अभिग्राही सक्षिप्त विक्षेपण संघटकों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, मांग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उम पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के समय गन्दस शुल्क के अंतर के बराबर हो।

सारणी

दूर दर्शन अभिग्राही सक्षिप्त विक्षेपण संघटकों के विनिर्माण के लिए

1. दूरदर्शन विक्षेपण संचालित या दूरदर्शन विक्षेपण योक।
2. फेराइट कोर ट्रांसफार्मर जिसकी सक्षिप्तिरित निर्गम वोल्टता: 10 किलोवाट से अधिक हो।

[सं० 47/फा० सं० बजट (सी० शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 101(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts self-bonding insulated copper winding wire falling under Heading No. 85.18/27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of Deflection Components of television reception apparatus specified in the Table below, from—

(a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act;

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the self-bonding insulated copper winding wire in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of the said Deflection Components of television reception apparatus an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

TABLE

Deflection Components of television reception apparatus

1. Television deflection coils or television deflection yokes.
2. Ferrite core transformers whose rated output voltage is more than 10 kilovolts.

[No. 47/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमा शुल्क

सा० का० नि० 102(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 95.18/27 के अन्तर्गत आने वाले धातु के आइलट को, जब उसका ट्रांजिस्टर हैडर के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 45 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है:

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित प्रूप में और राशि का बन्धन निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि वह संबंधित वस्तु के आइलैंड की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमा शुल्क सहायक कलक्टर के समाधान-प्रद रूप से यह मान्य नहीं किया गया है कि वह ट्रांजिस्टर हेडर के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, सांग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की वशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के समय सदन शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

[सं० 48/फा०स० बजट(सी० शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts metal eyelets falling under Heading No. 85.18/27 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of Transistor Headers, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the metal eyelets in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of Transistor Headers an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

[No. 48/F. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 103(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 90 के अन्तर्गत आने वाले और नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, जब भारत में उनका आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर, उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 25 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन
1.	हाइड्राएल गैयर टेस्टर
2.	गेयर प्रोफाइल और हेलिक्स टेस्टर।
3.	बेवेल गेयर ब्लैंक चेकर।
4.	गेयर एक्सेंट्रिसिटी टेस्टर।
5.	हाइड्राएल गेयर टूथ स्पेसिंग टेस्टर।
6.	औद्योगिक सामग्री को परखने के लिए 100 टन से अधिक क्षमता की यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन।

क्रम सं०	वर्णन
7.	विक्रम हार्डनेस टेस्टर।
8.	एक्सप्लोमीमीटर या दाह्य गैस सूचक यन्त्र।
9.	गेज, और नगर, जिग और उमक सवटकी की, जिसमें अन्तराली और बाहरी भाग भी हैं, जांच पड़ताल करने के लिए सार्वजनिक मापन उपकरण।
10.	0.00001 ग्राम सुशुद्धता वाला सिगिल पैत मेटालर्जिक ब्रेनेम।
11.	निर्वर्तन टाइप का प्रत्यक्ष वाचन स्पेक्ट्रोमीटर।

[सं० 49/फा० स० बजट (सी० शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R/103 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table below and falling within Chapter 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 25 per cent ad valorem.

TABLE

Sl. No.	Description
1.	Hypoid Gear Tester.
2.	Gear Profile and Helix Tester.
3.	Bevel Gear Blank Checker.
4.	Gear Eccentricity Tester.
5.	Hypoid Gear Tooth Spacing Tester.
6.	Universal Testing machine above 100 tonnes capacity for testing industrial materials.
7.	Vickers Hardness tester.
8.	Explosimeter or Combustible Gas Indicator.
7.	Universal Measuring instrument to check gauges, tools, jigs and components thereof, including internal and external threads.
10.	Single pan metallurgical balance of a sensitivity of 0.00001 gram.
11.	Vacuum Type direct reading spectrometer.

[No. 47/F.No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 104(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट मशीनों और साधनों को, जिनका प्रयोग अलखिल प्रयोगशालाओं में किया जाता है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 90 के अन्तर्गत आते हैं, जब भारत में उनका आयात किया जाये, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य का बालीम प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो।

सारणी

1. फिल्म मुद्रण मशीनें।
2. फिल्म सम्पादन मशीनें।
3. फिल्म माफ करने वाली मशीनें।

4. पुनः रिकार्ड करने वाली, श्रवणधारक तथा डबिंग उपस्कर।
5. चलचित्र अपवायित और श्रवितर्धक (रिड्यूसर और एनलार्जर)।
6. फिल्म एनेलाइजर।
7. ध्वनि मिश्रण यूनिट।
8. ध्वनि सम्बन्धन के लिये स्लॉपिंग पंच।

[सं० 50/का० सं० बजट (सी० शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the machines and apparatus, specified in the Table below, used in cinematographic laboratories, and falling within Chapter 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of forty per cent *ad valorem*.

TABLE

1. Film Printing Machines.
2. Film editing machines.
3. Film cleaning machines.
4. Re-recording, scoring and dubbing equipments.
5. Cinematographic reducers and enlargers.
6. Film analysers.
7. Sound mixing units.
8. Blooping punch for sound splicing.

[No. 50/F. No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सां० का० लि० 105(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्ष्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित, में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 37 01/08 के उप-शीर्ष सं० (3) के अन्तर्गत आने वाले माल को, जब भारत में उसका आयात किया जाये, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्घाटनीय अतिरिक्त शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है।

सारणी

माल का वर्णन	4000 मीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्मों के लिये शुल्क की दर
(1)	(2)

सिनेमा फिल्में, छिन्नी हुईं ओ—

(क) पूर्णतया कापी और सफेद हों मान हजार सात सौ पचास रुपये प्रति प्रिट।

(ख) जो पूर्णतया या अंशतया रंगीन तेरह हजार रुपये प्रति प्रिट। हों।

परन्तु यदि सारणी में वर्णित फिल्मों की लम्बाई 4000 मीटर से अधिक है तो शुल्क की दर से तत्तम विनिर्देश वाली फिल्मों की बाबत उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट दर पच्चीस प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी।

[सं० 51/का० सं० बजट (सी० शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 105 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under sub-heading No. (3) of Heading No. 37.01/08 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and specified in column (1) of the Table here to annexed, when imported into India, from so much of the additional duty, which is leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Description of goods	Rate of duty for Films not exceeding 4000 metres in length
(1)	(2)
Cinematograph films, exposed :	
(a) made wholly in black and white.	Seven thousand, seven hundred and fifty rupees per print.
(b) made wholly or partly in colour.	Thirteen thousand rupees per print.

Provided that if in respect of films described in the Table the length of such films exceeds 4000 metres, the rate of duty shall be increased by twentyfive per cent of the rate specified in the said Table in respect of films of corresponding specification.

[No. 51/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सां० का० लि० 106(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1978 के खंड 35 के उपखंड (4), जो खण्ड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्ष्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम अनुसूची कहा गया है) वर्णित माल है, उस पर उक्त वित्त विधेयक के खंड 35 के उपखंड (1) के अधीन उद्घाटनीय उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्र० सं०	माल का वर्णन	सहायक सीमाशुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	वह माल जिसकी बाबत, भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार या उस से अधिक है किन्तु एक सौ प्रतिशत से कम है	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा-अवधारित माल के मूल्य का 15 प्रतिशत।

(1)	(2)	(3)
2. वह माल जिसकी बाबत, भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर शून्य या 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम है।	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित माल के मूल्य का पांच प्रतिशत।	
3. वह माल जिसकी बाबत, भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क—	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबन्धों के अनुसार यथा अवधारित, माल के मूल्य का पांच प्रतिशत।	
(i) किसी विनिर्दिष्ट दर पर है, अथवा		
(ii) किसी विनिर्दिष्ट दर या मूल्यानुसार दर में से जो भी यथास्थिति, न्यून या उच्चतर हो, उस पर है; अथवा		
(iii) किसी विनिर्दिष्ट दर और मूल्यानुसार दर पर है।		
4. कच्चा पेट्रोलियम जो उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 27.09 के अन्तर्गत सम्मिलित है।	9.50 रुपये प्रति मीटरी टन।	

स्पष्टीकरण:—उपर्युक्त सारणी में क्रम सं० 1 और 2 के प्रयोजनों के लिये "भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर" अभिव्यक्ति में दो या अधिक भिन्न-भिन्न शुल्क दरों के वायित्वाधीन किसी वस्तु के सम्बन्ध में, शुल्क की वह दर अभिप्रेत है जो उन दरों में उच्चतम है।

[सं० 52/फा० सं० बजट/सी० शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 35 of the Finance Bill, 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table below, being goods mentioned in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the First Schedule), from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 35 of the said Finance Bill as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption granted under any other notification of the Government of India for the time being in force, from the auxiliary duty of customs in respect of the goods referred to in this notification.

TABLE

S. No.	Description of goods	Rate of auxiliary duty of customs
(1)	(2)	(3)
1.	Goods in respect of which the rate of duty of customs	Fifteen per cent of the value of the goods as determined

(1)	(2)	(3)
	specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force is 60 per cent <i>ad valorem</i> or more but less than 100 per cent <i>ad valorem</i> .	in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
2. Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force is nil or less than 60 per cent <i>ad valorem</i> .		Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
3. Goods in respect of which the duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is --		Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
(i) at a specific rate ; or		
(ii) at a specific rate or <i>ad valorem</i> rate, whichever is less or higher, as the case may be; or		
(iii) at a specific rate and <i>ad valorem</i> rate.		
4. Crude Petroleum, falling under Heading No. 27.09 of the said First Schedule.		Rs. 9.50 per metric tonne.

Explanation :—For the purposes of Sl. Nos. 1 and 2 in the above Table, the expression "the rate of duty of customs specified in the said First Schedule read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force", in relation to any article liable to two or more different rates of duty by reason of the country of origin of that article, means that rate of duty which is the highest of those rates.

[No. 52/F. No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० फा० नि० 107(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1978 के खंड 35 के उपखंड (4), जो खंड करों का अनन्तिम संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उस अध्याय या उन अध्यायों के अन्तर्गत सम्मिलित माल को, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त वित्त विधेयक के खंड 35 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

सारणी			(1)	(2)	(3)
क्रम सं०	सीमाशुल्क	माल का वर्णन			
	टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय सं०				(3) सामूची इंजन और उनके पुरजे जिसमें वे इंजन और पुरजे नहीं हैं जो मोटरयानों में प्रयोग के लिए एक दूसरे के साथ बदले जा सकते हैं और ऊपर की मद (2) में विनिर्दिष्ट से भिन्न हैं।
(1)	(2)	(3)			
1	7	दालें, जिनके अन्तर्गत दली हुई दालें भी हैं।	15.	85	शीर्ष सं० 85.01(1), 85.02(1), 85.11(1), 85.18/27(3) और 85.18/27(7) के अन्तर्गत आने वाला माल
2.	10	अनाज, जिनके अन्तर्गत दली हुआ अनाज भी है।	16.	86	जलित और टेडर तथा उनके पुरजे।
3.	25	नमक।	17.	87	ट्रैक्टर और फायर-इंजन तथा उनके पुरजे।
4	27	खनिज ग्रीज, जिनके अन्तर्गत पेट्रोलियम जेली, ऊंची गति वाला डीजल तेल और शीर्ष सं० 27.10 की उपशीर्ष सं० (2), (3), (4), (6), (7) और (8) के अन्तर्गत सम्मिलित माल भी है।	18.	98	कम्पोजिंग स्टिक।
5	37	शैक्षिक प्रयोजनों के लिए फिल्म स्ट्रिप्स और फिल्म स्लाइड।	[सं० 53/फा० सं० बजट(सी०शु०)/78]		
6.	40	शीर्ष सं० 40.05/16 की उपशीर्ष सं० (3) के अन्तर्गत सम्मिलित माल।			
7.	49	करेन्सी नोट मुद्रित पुस्तकें, जिनके अन्तर्गत मुद्रित पुस्तकों के लिए कवर, नक्शे, चार्ट और रेखांक, प्रूफ, संगीत, पांडुलिपियां, और पुस्तकों की जिल्द-साजी के लिए विशेष रूप से बनाए गए चित्र भी हैं।	CUSTOMS		
8	49 99	नमूने, माडल, और बीवाल-आरेख, प्राकृतिक विज्ञान के चित्र, मीडल, प्राचीन सिक्के और डाक टिकट, चाहे प्रयुक्त या अप्रयुक्त।	G.S.R.107 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 35 of the Finance Bill, 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling within the Chapter or Chapters of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 35 of the said Finance Bill.		
9.	55 या	कच्ची कपास।			
10.	59	शीर्ष सं० 59.16/17 में सम्मिलित माल	TABLE		
11.	71	औद्योगिक हीरे (डायमंड)	Serial Chapter No. Description of goods No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975		
12.	72	भारत सरकार के चालू सिक्के	(1)	(2)	(3)
13	84	शीर्ष सं० 84.01/02, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.08(1), 84.09, 84.10(1), 84.11(1), 84.11(4), 84.13, 84.14, 84.15(1), 84.16, 84.17(1), 84.18(1), 84.22, 84.23, 84.24(1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30(2), 84.31, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37(1), 84.38(1), 84.39, 84.40(1), 84.41(1), 84.42(1), 84.42(2), 84.43, 84.44, 84.45/48, 84.49, 84.56, 84.57, 84.59 और 84.66 के अन्तर्गत आने वाला माल।	1.	7	Pulses including broken pulses.
			2.	10	Grains including broken grains.
			3.	25	Salt.
			4.	27	Mineral grease, including petroleum jelly, high speed diesel oil, and goods falling under Sub-heading Nos. (2), (3), (4), (6), (7) and (8) of Heading No. 27.10.
			5.	37	Film strips and film slides for educational purposes.
			6.	40	Goods falling under Sub-heading No. (3) of Heading No. 40.05/16.
			7.	49	Paper money, books, printed, including covers for printed books, maps, charts and plans, proofs, music, manuscripts, and illustrations specially made for binding in books.
			8.	49 or 99	Specimens, models and wall diagrams, illustrative of natural science, medals, antique coins and postage stamps, whether used or unused.
			9.	55	Cotton, raw.
			10.	59	Goods falling under Heading No. 59.16/17.
14.	84	(1) स्थिर या औद्योगिक अन्तर्दहन पिस्टन इंजन और उनके पुरजे जिसमें वे इंजन और पुरजे नहीं हैं जिन्हें मोटरयानों में प्रयोग के लिए एक दूसरे के साथ बदला जा सकता है और जो नीचे मद (2) में विनिर्दिष्ट से भिन्न हैं। (2) औद्योगिक और कृषि ट्रैक्टरों के लिए अन्तर्दहन पिस्टन इंजन और उनके पुरजे जिसमें वे इंजन और पुरजे नहीं हैं जो अन्य मोटरयानों में प्रयोग के लिए एक दूसरे के साथ बदले जा सकते हैं।			

(1)	(2)	(3)
11.	71	Industrial diamonds.
12.	72	Current coin of the Government of India.
13.	84	Goods falling under Heading Nos. 84.01/02, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.08 (1), 84.09, 84.10 (1), 84.11 (1), 84.11 (4), 84.13, 84.14, 84.15(1), 84.16, 84.17(1), 84.18(1), 84.22, 84.23, 84.24 (1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30(2), 84.31, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37(1), 84.38 (1), 84.39, 84.40 (1), 84.41(1), 84.42(1), 84.42(2), 84.43, 84.44, 84.45/48, 84.49, 84.56, 84.57, 84.59 and 84.66.
14.	84	(1) Stationary or industrial internal combustion piston engines and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with motor vehicles other than those specified in item (2) below. (2) Internal combustion piston engines for industrial and agricultural tractors and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with other motor vehicles. (3) Marine engines and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with motor vehicles other than those specified in item (2) above.
15.	85	Goods falling under Heading Nos. 85.01(1), 85.02(1), 85.11(1), 85.18/27 (3) and 85.18/27 (7).
16.	86	Locomotives and tenders and parts thereof
17.	87	Tractors and Fire-engines, and parts thereof.
18.	98	Composing sticks.

[No. 53 /F. No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 108(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1978 के खंड 35 के उपखंड (4) जो खंड करो का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, उस माल को, जो नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं के आधार पर सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त है, उक्त वित्त विधेयक, 1978 के खंड 35 के उपखंड (1) के अधीन उक्त पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के संदाय से छूट देती है।

अनुसूची

- सं० 2-सीमाशुल्क, तारीख 10 जनवरी, 1953।
- सं० 43-सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 1953।
- सं० 136-सीमाशुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1956।
- सं० 3-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957।
- सं० 113-सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 1957।
- सं० 220-सीमाशुल्क, तारीख 12 अक्टूबर, 1957।
- सं० 65-सीमाशुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958।

- सं० 67-सीमाशुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958।
- 106-सीमाशुल्क, तारीख 29 मार्च, 1958।
- 151-सीमाशुल्क, तारीख 10 मई, 1958।
- 259-सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्टूबर, 1958।
- 260-सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्टूबर, 1958।
- 261-सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्टूबर, 1958।
- 262-सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्टूबर, 1958।
- 269-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
- 271-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
- 273-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
- 275-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
- 276-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
- 84-सीमाशुल्क, तारीख 13 अगस्त, 1960।
- 117-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 1961।
- 132-सीमाशुल्क, तारीख 9 दिसम्बर, 1961।
- 26-सीमाशुल्क, तारीख 19 फरवरी, 1962।
- 136-सीमाशुल्क, तारीख 29 सितम्बर, 1962।
- 168-सीमाशुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962।
- 169-सीमाशुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962।
- 170-सीमाशुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962।
- 43-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1963।
- 92-सीमाशुल्क, तारीख 9 मार्च, 1963।
- 180-सीमाशुल्क, तारीख 20 जुलाई, 1963।
- 202-सीमाशुल्क, तारीख 24 अगस्त, 1963।
- 210-सीमाशुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 1963।
- 10-सीमाशुल्क, तारीख 16 जनवरी, 1965।
- 163-सीमाशुल्क, तारीख 16 अक्टूबर, 1965।
- 67-सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1966।
- 135-सीमाशुल्क, तारीख 20 जून, 1966।
- 174-सीमाशुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1966।
- 85-सीमाशुल्क, तारीख 5 अगस्त, 1967।
- 98-सीमाशुल्क, तारीख 21 जून, 1969।
- 157-सीमाशुल्क, तारीख 19 जुलाई, 1969।
- 130-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970।
- 103-सीमाशुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1970।
- 36-सीमाशुल्क, तारीख 1 मई, 1971।
- 84-सीमाशुल्क, तारीख 11 सितम्बर, 1971।
- 37-सीमाशुल्क, तारीख 18 मार्च, 1972।
- 46-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974।
- 79-सीमाशुल्क, तारीख 16 अक्टूबर, 1974।
- 27-सीमाशुल्क, तारीख 6 मई, 1975।
- 125-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 127-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 130-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 134-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 161-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 149-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 150-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 154-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 158-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 115-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 161-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 165-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 166-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 173-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
- 174-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।

[illegible]

174. 13-सीमाशुल्क, तारीख 7 जनवरी, 1978।
175. 18-सीमाशुल्क, तारीख 25 जनवरी, 1978।
176. 21-सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 1978।
177. 23-सीमाशुल्क, तारीख 30 जनवरी, 1978।
178. 25-सीमाशुल्क, तारीख 31 जनवरी, 1978।
179. 34-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
180. 36-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
181. 37-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
182. 39-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
183. 43-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
184. 44-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
185. 46-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
186. 47-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
187. 48-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
188. 49-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
189. 50-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।

[सं 54/फा सं० अजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 35 of the Finance Bill, 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods which are partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by virtue of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance or in the Department of Revenue and Banking, specified in the Schedule below, from the payment of auxiliary duty of customs leviable on such goods under sub-clause (1) of clause 35 of the said Finance Bill.

SCHEDULE

1. No. 2-Customs, dated the 10th January, 1953
2. No. 43-Customs, dated the 6th June, 1953.
3. No. 136-Customs, dated the 30th November, 1956.
4. No. 3-Customs, dated the 8th January, 1957.
5. No. 113-Customs, dated the 16th May, 1957.
6. No. 220-Customs, dated the 12th October, 1957.
7. No. 65-Customs, dated the 22nd February, 1958
8. No. 67-Customs, dated the 22nd February, 1958.
9. No. 106-Customs, dated the 29th March, 1958.
10. No. 151-Customs, dated the 10th May, 1958.
11. No. 259-Customs, dated the 11th October, 1958.
12. No. 260-Customs, dated the 11th October, 1958.
13. No. 261-Customs, dated the 11th October, 1958.
14. No. 262-Customs, dated the 11th October, 1958.
15. No. 269-Customs, dated the 25th October, 1958.
16. No. 271-Customs, dated the 25th October, 1958.
17. No. 273-Customs, dated the 25th October, 1958
18. No. 275-Customs, dated the 25th October, 1958
19. No. 276-Customs, dated the 25th October, 1958.
20. No. 84-Customs, dated the 13th August, 1960.
21. No. 117-Customs, dated the 13th October, 1961
22. No. 132-Customs, dated the 9th December, 1961
23. No. 26-Customs, dated the 19th February, 1962
24. No. 136-Customs, dated the 29th September, 1962.
25. No. 168-Customs, dated the 8th November, 1962
26. No. 169-Customs, dated the 8th November, 1962
27. No. 170-Customs, dated the 8th November, 1962.
28. No. 43-Customs, dated the 1st February, 1963.
29. No. 92-Customs, dated the 9th March, 1963
30. No. 180-Customs, dated the 20th July, 1963
31. No. 202-Customs, dated the 24th August, 1963.
32. No. 210-Customs, dated the 7th September, 1963.
33. No. 10-Customs, dated the 16th January, 1965.
34. No. 163-Customs, dated the 16th October, 1965.
35. No. 67-Customs, dated the 30th April, 1966.
36. No. 135-Customs, dated 20th June, 1966
37. No. 174-Customs, dated the 24th September, 1966.
38. No. 85-Customs, dated the 5th August, 1967.
39. No. 98-Customs, dated the 21st June, 1969.
40. No. 107-Customs, dated the 19th July, 1969.
41. No. 80-Customs, dated the 29th August, 1970.
42. No. 103-Customs, dated the 5th December, 1970.
43. No. 36-Customs, dated the 1st May, 1971.
44. No. 84-Customs, dated the 11th September, 1971.
45. No. 37-Customs, dated the 18th March, 1972.
46. No. 46-Customs, dated the 25th May, 1974
47. No. 79-Customs, dated the 16th October, 1974.
48. No. 27-Customs, dated the 6th May, 1975.
49. No. 125-Customs, dated the 2nd August, 1976.
50. No. 127-Customs, dated the 2nd August, 1976.
51. No. 130-Customs, dated the 2nd August, 1976.
52. No. 134-Customs, dated the 2nd August, 1976
53. No. 141-Customs, dated the 2nd August, 1976.
54. No. 149-Customs, dated the 2nd August, 1976.
55. No. 150-Customs, dated the 2nd August, 1976.
56. No. 154-Customs, dated the 2nd August, 1976.
57. No. 158-Customs, dated the 2nd August, 1976.
58. No. 160-Customs, dated the 2nd August, 1976.
59. No. 161-Customs, dated the 2nd August, 1976.
60. No. 165-Customs, dated the 2nd August, 1976.
61. No. 166-Customs, dated the 2nd August, 1976.
62. No. 173-Customs, dated the 2nd August, 1976
63. No. 174-Customs, dated the 2nd August, 1976.
64. No. 182-Customs, dated the 2nd August, 1976.
65. No. 183-Customs, dated the 2nd August, 1976.
66. No. 184-Customs, dated the 2nd August, 1976.
67. No. 185-Customs, dated the 2nd August, 1976.
68. No. 186-Customs, dated the 2nd August, 1976.
69. No. 187-Customs, dated the 2nd August, 1976.
70. No. 188-Customs, dated the 2nd August, 1976.
71. No. 189-Customs, dated the 2nd August, 1976.
72. No. 191-Customs, dated the 2nd August, 1976.
73. No. 192-Customs, dated the 2nd August, 1976.
74. No. 193-Customs, dated the 2nd August, 1976.
75. No. 194-Customs, dated the 2nd August, 1976.
76. No. 195-Customs, dated the 2nd August, 1976.
77. No. 197-Customs, dated the 2nd August, 1976.
78. No. 198-Customs, dated the 2nd August, 1976.
79. No. 201-Customs, dated the 2nd August, 1976.
80. No. 202-Customs, dated the 2nd August, 1976
81. No. 205-Customs, dated the 2nd August, 1976
82. No. 206-Customs, dated the 2nd August, 1976
83. No. 207-Customs, dated the 2nd August, 1976
84. No. 208-Customs, dated the 2nd August, 1976
85. No. 209-Customs, dated the 2nd August, 1976
86. No. 210-Customs, dated the 2nd August, 1976
87. No. 211-Customs, dated the 2nd August, 1976
88. No. 213-Customs, dated the 2nd August, 1976
89. No. 215-Customs, dated the 2nd August, 1976
90. No. 216-Customs, dated the 2nd August, 1976
91. No. 217-Customs, dated the 2nd August, 1976
92. No. 218-Customs, dated the 2nd August, 1976.

93. No. 220-Customs, dated the 2nd August, 1976.
94. No. 222-Customs, dated the 2nd August, 1976.
95. No. 223-Customs, dated the 2nd August, 1976.
96. No. 225-Customs, dated the 2nd August, 1976.
97. No. 226-Customs, dated the 2nd August, 1976.
98. No. 229-Customs, dated the 2nd August, 1976.
99. No. 230-Customs, dated the 2nd August, 1976.
100. No. 236-Customs, dated the 2nd August, 1976.
101. No. 237-Customs, dated the 2nd August, 1976.
102. No. 238-Customs, dated the 2nd August, 1976.
103. No. 241-Customs, dated the 2nd August, 1976.
104. No. 242-Customs, dated the 2nd August, 1976.
105. No. 243-Customs, dated the 2nd August, 1976.
106. No. 246-Customs, dated the 2nd August, 1976.
107. No. 248-Customs, dated the 2nd August, 1976.
108. No. 249-Customs, dated the 2nd August, 1976.
109. No. 250-Customs, dated the 2nd August, 1976.
110. No. 260-Customs, dated the 2nd August, 1976.
111. No. 272-Customs, dated the 2nd August, 1976.
112. No. 288-Customs, dated the 2nd August, 1976.
113. No. 290-Customs, dated the 2nd August, 1976.
114. No. 292-Customs, dated the 2nd August, 1976.
115. No. 294-Customs, dated the 2nd August, 1976.
116. No. 296-Customs, dated the 2nd August, 1976.
117. No. 302-Customs, dated the 2nd August, 1976.
118. No. 309-Customs, dated the 2nd August, 1976.
119. No. 310-Customs, dated the 2nd August, 1976.
120. No. 311-Customs, dated the 2nd August, 1976.
121. No. 313-Customs, dated the 2nd August, 1976.
122. No. 315-Customs, dated the 2nd August, 1976.
123. No. 316-Customs, dated the 2nd August, 1976.
124. No. 319-Customs, dated the 2nd August, 1976.
125. No. 320-Customs, dated the 2nd August, 1976.
126. No. 322-Customs, dated the 2nd August, 1976.
127. No. 324-Customs, dated the 2nd August, 1976.
128. No. 347-Customs, dated the 2nd August, 1976.
129. No. 350-Customs, dated the 2nd August, 1976.
130. No. 388-Customs, dated the 2nd August, 1976.
131. No. 395-Customs, dated the 2nd August, 1976.
132. No. 4-Customs, dated the 6th January, 1977.
133. No. 7-Customs, dated the 11th January, 1977.
134. No. 11-Customs, dated the 15th January, 1977.
135. No. 23-Customs, dated the 8th February, 1977.
136. No. 104-Customs, dated the 1st July, 1977.
137. No. 105-Customs, dated the 1st July, 1977.
138. No. 124-Customs, dated the 1st July, 1977.
139. No. 125-Customs, dated the 1st July, 1977.
140. No. 126-Customs, dated the 1st July, 1977.
141. No. 127-Customs, dated the 1st July, 1977.
142. No. 128-Customs, dated the 1st July, 1977.
143. No. 129-Customs, dated the 1st July, 1977.
144. No. 130-Customs, dated the 1st July, 1977.
145. No. 131-Customs, dated the 1st July, 1977.
146. No. 132-Customs, dated the 1st July, 1977.
147. No. 134-Customs, dated the 1st July, 1977.
148. No. 135-Customs, dated the 1st July, 1977.
149. No. 138-Customs, dated the 1st July, 1977.
150. No. 141-Customs, dated the 16th July, 1977.
151. No. 142-Customs, dated the 16th July, 1977.
152. No. 143-Customs, dated the 16th July, 1977.
153. No. 148-Customs, dated the 15th July, 1977.
154. No. 149-Customs, dated the 15th July, 1977.
155. No. 152-Customs, dated the 15th July, 1977.
156. No. 153-Customs, dated the 15th July, 1977.
157. No. 156-Customs, dated the 16th July, 1977.

158. No. 169-Customs, dated the 6th August, 1977.
159. No. 183-Customs, dated the 22nd August, 1977.
160. No. 185-Customs, dated the 27th August, 1977.
161. No. 194-Customs, dated the 5th September, 1977.
162. No. 200-Customs, dated the 24th September, 1977.
163. No. 211-Customs, dated the 15th October, 1977.
164. No. 231-Customs, dated the 1st November, 1977.
165. No. 234-Customs, dated the 2nd November, 1977.
166. No. 242-Customs, dated the 19th November, 1977.
167. No. 245-Customs, dated the 19th November, 1977.
168. No. 252-Customs, dated the 1st December, 1977.
169. No. 253-Customs, dated the 13th December, 1977.
170. No. 154-Customs, dated the 13th December, 1977.
171. No. 5-Customs, dated the 4th January, 1978.
172. No. 8-Customs, dated the 6th January, 1978.
173. No. 11-Customs, dated the 7th January, 1978.
174. No. 13-Customs, dated the 7th January, 1978.
175. No. 18-Customs, dated the 25th January, 1978.
176. No. 21-Customs, dated the 28th January, 1978.
177. No. 23-Customs, dated the 30th January, 1978.
178. No. 25-Customs, dated the 31st January, 1978.
179. No. 34-Customs, dated the 1st March, 1978.
180. No. 26-Customs, dated the 1st March, 1978.
181. No. 37-Customs, dated the 1st March, 1978.
182. No. 39-Customs, dated the 1st March, 1978.
183. No. 43-Customs, dated the 1st March, 1978.
184. No. 44-Customs, dated the 1st March, 1978.
185. No. 46-Customs, dated the 1st March, 1978.
186. No. 47-Customs, dated the 1st March, 1978.
187. No. 48-Customs, dated the 1st March, 1978.
188. No. 49-Customs, dated the 1st March, 1978.
189. No. 50-Customs, dated the 1st March, 1978.

[No. 54/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सा० का० नि० 109 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1978 के खंड 35 के उपखण्ड (4), जो खंड करो का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन इस विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं० 37 01/08 की उप-शीर्ष सं० (3) के अन्तर्गत आने वाली खिची हुई सिनेमा फिल्मों को, जब भारत में उनका आयात किया जाए, उक्त विधेयक के खंड 35 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्घरण्य उतने सहायक सीमा-शुल्क से, जितना टेबल निम्नलिखित के द्योतक मूल्य के पाँच प्रतिशत से अधिक है—

(क) सिनेमा फिल्म के प्रिंट की लागत; और

(ख) ऐसे सिनेमा फिल्म के प्रिंट की बाबत उपगत भाड़ा तथा बीमे के प्रभार।

[स० 55/फा० स० बजट (सी०शुल्क)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 109(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 35 of the Finance Bill, 1978, which clause has by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being

satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts every cinematograph film, exposed, falling under sub-heading No. (3) of Heading No. 37.01/08 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 35 of the said Finance Bill as is in excess of five per cent of the value representing only :—

- (a) the cost of the print of the cinematograph film ; and
(b) the freight and insurance charges incurred in respect of the print of such cinematograph film.

[No. 55/F. No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सां.कां.नि० 110(अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1978 के खंड 35 के उपखंड (4), जो कार्य का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक से की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल को जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उस शीर्ष सं० के अन्तर्गत आता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उस पर उक्त विधेयक के खंड 35 के उपखंड (1) के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

सारणी

क्रम	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, सं० 1975 की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	15.07	नारियल का तेल
2.	48.01/21	स्टीरियो फ्लॉयड
3.	51.01/03	पोलिएस्टर/फिलामेंट सूत, पोलिएस्टर मोनोफ़िल और पोलिएस्टर स्ट्रिंग
4.	71.02(2)	कोरे हीरे
5.	82.06	लेदर शैविंग मशीन (हाइड्रोलिक) के ब्लेड।

[सं० 56/फा० सं० बजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 110(F).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 35 of the Finance Bill 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling under the Heading number of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 35 of the said Finance Bill.

TABLE

Serial	Heading No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	15.07	Coconut oil.
2.	48.01/21	Setereo flongs.
3.	51.01/03	Polyester filament yarn, polyester mono-fil and polyester strips.
4.	71.02(2)	Rough diamonds.
5.	82.06	Blades for leather shaving machine (Hydraulic).

[No. 56/F. No. Bud (Cus)/78]

सीमाशुल्क

सां.कां.नि० 111(अ) —केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1978 के खंड 35 के उपखंड (4), जो खंड करी का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक से की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 73.03/05 के अन्तर्गत आने वाले लोहे या इस्पात के गलन स्क्रैप का जब इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी में प्रयोग के लिए उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त विधेयक के खंड 35 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

परन्तु यह तब जब समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि आयात किए गए लोहे या इस्पात के गलन स्क्रैप का वस्तुतः इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी में प्रयोग किया गया है।

[सं० 57/फा० सं० बजट (सी०शु०)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 111(E).—In exercise of the powers conferred by section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 35 of the Finance Bill, 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts melting scrap of iron or steel, falling under Heading No. 73.03/05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for use in electric arc furnace, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 35 of the said Finance Bill :

Provided that the proper officer is satisfied that the imported melting scrap of iron or steel is in fact used in electric arc furnace.

[No. 57/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

—सां. कां. निं. 112(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1978 के खंड 35 के उपखंड (4), जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उपरोक्त के संघटक पुरजों को, जब भारत में उनका आयात ऐसे किसी उपर के विनिर्माण या संयोजन के लिए किया जाए,—

(क) जिसका शुद्ध भार (पे-लोड को छोड़कर) आठ टन से अधिक है और जो बस टन या अधिक पे-लोड के लिए डिजाइन किया गया है और

(ख) जो हार्ड-वे से अलग प्रयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं, उक्त वित्त विधेयक के खंड 35 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमा-शुल्क से इस शर्त के अधीन छूट देती है कि आयातकर्ता, सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विहित प्रारूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए जवाबदार करे कि वह ऐसे संघटक पुरजों की बाबत जिनके सम्बन्ध में सहायक, सीमाशुल्क कलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं किया गया है कि उनका उपयोग ऐसे उपरों के विनिर्माण या संयोजन के लिए किया गया है, मॉग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के म दिए जाने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के समय प्रदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

[सं. 58/कां. सं. बजट (सी.शु.)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 35 of the Finance Bill, 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts of dumpers, when imported into India for the purpose of manufacture or assembly of a dumper—

(a) of which the net weight (excluding pay-load) is more than eight tonnes and which is designed for a pay-load of ten tonnes or more; and

(b) which is designed for use off the high way, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 35 of the said Finance Bill, subject to the condition that the importer shall, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such component parts as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture or assembly of such dumpers an amount equal to the difference between the duty leviable on such component parts but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 58/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सां. कां. निं. 113(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की 388 G I/77—3

उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं. 59/कां. सं. बजट (सी.शु.)/78]

CUSTOMS

G.S.R. 113(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the second mentioned Act.

[No. 59/F. No. Bud(Cus)/78]

सीमाशुल्क

सां. कां. निं. 114(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाएं विखंडित करती है, अर्थात्:—

1. सं. 120—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
2. सं. 122—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
3. सं. 123—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
4. सं. 154—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
5. सं. 166—सीमाशुल्क, तारीख 28 जुलाई, 1977।
6. सं. 170—सीमाशुल्क, तारीख 6 अगस्त, 1977।
7. सं. 186—सीमाशुल्क, तारीख 27 अगस्त, 1977।
8. सं. 189—सीमाशुल्क, तारीख 22 अगस्त, 1977।
9. सं. 201—सीमाशुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1977।
10. सं. 206—सीमाशुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1977।
11. सं. 215—सीमाशुल्क, तारीख 15 अक्तूबर, 1977।
12. सं. 243—सीमाशुल्क, तारीख 19 नवम्बर, 1977।
13. सं. 267—सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 1977।
14. सं. 10—सीमाशुल्क, तारीख 7 जनवरी, 1978।
15. सं. 12—सीमाशुल्क, तारीख 7 जनवरी, 1978।
16. सं. 24—सीमाशुल्क, तारीख 30 जनवरी 1978।

[सं. 60/कां. सं. बजट (सी.शु.)/78]

जोसेफ बोमिनिक, प्रवर सचिव

CUSTOMS

G.S.R. 114(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as the case may be, namely:—

1. No. 120-Customs, dated the 1st July, 1977.
2. No. 122-Customs, dated the 1st July, 1977.
3. No. 123-Customs, dated the 1st July, 1977.

4. No. 154-Customs, dated the 15th July, 1977.
5. No. 166-Customs, dated the 28th July, 1977.
6. No. 170 Customs, dated the 6th August, 1977.
7. No. 186-Customs, dated the 27th August, 1977.
8. No. 188-Customs, dated the 22nd August, 1977.
9. No. 201-Customs, dated the 24th September, 1977.
10. No. 206-Customs, dated the 24th September, 1977.
11. No. 215-Customs, dated the 15th October, 1977.
12. No. 243-Customs, dated the 19th November, 1977.
13. No. 267-Customs, dated the 30th December, 1977.
14. No. 10-Customs, dated the 7th January, 1978.
15. No. 12-Customs, dated the 7th January, 1978.
16. No. 24-Customs, dated the 30th January, 1978.

[No. 60/F. No. Bud(Cus)/78]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकां. 115(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व खंड) की अधिसूचना सं. 32/51 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 अक्टूबर, 1951 को अधिकांश करते हुए, निदेश देती है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 3 के अन्तर्गत आने वाली चाय की रहीं, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगी यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाए कि उत्पादन वाले कारखाने से हटाए जाने से पूर्व ऐसी चाय की रहीं को ऐसे विकृतीकरण के जो इस निमित्त उसके विनिर्दिष्ट किया जाए, मिश्रण से कारगर रूप से इस प्रकार विकृतीकृत कर दिया गया है कि ऐसी चाय की रहीं मानव उपभोग के योग्य नहीं रही हैं।

[सं. 39/78/कां. सं. 352/क/1/78-टी आर यू]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 115(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Revenue Division) No. 32/51-Central Excises, dated the 6th October, 1951, the Central Government hereby directs that tea waste falling under Item No. 3 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon under the said Act, if it is proved to the satisfaction of the Collector of Central Excise that such tea waste before removal from the factory of production is effectively denatured by the admixture of such denaturant as may be specified by him in this behalf so as to render such tea waste unfit for human consumption.

[No. 39/78/F. No. 352/A/1/78-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकां. 116(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बैंकिंग विभाग) की अधिसूचनाओं सं. 54/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 और 57/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976 को अधिकांश करते हुए, इसे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के सिगारों और चुट्टों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 4 की उपमद (1) के अन्तर्गत आते हैं और "ब्राड नाम" से खेजे जाते हैं,

उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उस सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

वर्णन	शुल्क की दर
1	2
सिगार और चुट्ट जिनका मूल्य प्रति 100—	
(1) पांच रुपये से अधिक नहीं है	15 प्रतिशत मूल्यानुसार
(2) पांच रुपये से अधिक है किन्तु पन्द्रह रुपये से अधिक नहीं है	50 प्रतिशत मूल्यानुसार
(3) पन्द्रह रुपये से अधिक है	100 प्रतिशत मूल्यानुसार

परन्तु इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम क्रमशः केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 75 : 25 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ब्राड नाम" से कोई ब्राड नाम चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, अर्थात् ऐसा नाम या चिह्न अभिप्रेत है, जैसे प्रतीकचिह्न, मोमोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई विवेक, जो उन सिगारों और चुट्टों तथा किसी व्यक्ति के बीच जो उस व्यक्ति की पहचान को उपदर्शित करके या उपदर्शित किए बिना, ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करता है, व्यापार के अनुक्रम में कोई संबंध उपदर्शित करने के लिए या इसलिए कि ऐसा संबंध उपदर्शित हो, उन सिगारों और चुट्टों के संबंध में प्रयोग में लाया जाता है।

[सं. 40/78/कां. सं. 338/13/77-टी.आर. यू.]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 54/76-Central Excises and 57/76-Central Excises, both dated the 16th March, 1976, the Central Government hereby exempts cigars and cheroots of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed and falling under sub-item II (i) of item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and sold under a brand name, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

TABLE

Description (1)	Rate of duty (2)
Cigars and cheroots of which the value per one hundred—	
(i) does not exceed rupees five.	15 per cent ad valorem.
(ii) exceeds rupees five but does not exceed rupees fifteen.	50 per cent ad valorem.
(iii) exceeds rupees fifteen.	100 per cent ad valorem.

Provided that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 75 : 25 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively.

Explanation:—For the purposes of this notification, "brand name" shall mean a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark such as, a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to such cigars and cheroots for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the cigars and cheroots and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

[No. 40/78/F. No. 338/13/77-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सां.कां.वि. 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 130/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिकांश करते हुए, इससे उपाबद्ध मारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के सम्बन्धित सूत को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1941 (1941 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 18 की उपमद II(i)(7) के अन्तर्गत आता है, उस पर उपग्रहणीय उक्त उत्पाद-शुल्क में छूट देता है जितना उक्त मारणी के स्तम्भ (3) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं.	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1	आधारी सूत से उत्पादित सम्बन्धित सूत	आधारी सूत पर तत्समय उपग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले ही न दे दिया गया हो, तथा पांच रुपए प्रति किलोग्राम का योग।
2	अन्य सम्बन्धित सूत—	(रु० प्रति किलोग्राम)
	(क) पोलिमाइड (नायलॉन) सम्बन्धित सूत—	
(1)	38.5 डेनियर से कम	63.80
(2)	38.5 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 88 डेनियर से कम	56.80
(3)	88 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 121 डेनियर से कम	49.80
(4)	121 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 165 डेनियर से कम	42.80
(5)	165 डेनियर और उससे अधिक	24.60
	(ख) पोलिएस्टर सम्बन्धित सूत—	
(1)	33 डेनियर से कम	82.00
(2)	33 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 82.5 डेनियर से कम	75.00
(3)	82.5 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 110 डेनियर से कम	68.00
(4)	110 डेनियर और उससे अधिक	54.00
	(ग) अन्य	90.00

स्पष्टीकरण I :—“आधारी सूत” से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 18 की उपमद II(i)(क) के अन्तर्गत आने वाला वह सूत अभिप्रेत है जिससे सम्बन्धित सूत तैयार किया गया हो ;

स्पष्टीकरण II :—“अन्य सम्बन्धित सूत” का डेनियर नीचे विनिर्दिष्ट रीति से अन्वयित किया जाएगा, अर्थात् :—

- (1) एक मेट्रन रील का उपयोग करके तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि उर्मिल को हटाने न कि धागा फैलाने के लिए रील में लपेटते समय खिचाव ठीक-ठीक और बराबर रहे 90 मीटर धागा नाप कर मलग कर लिया जाएगा ;
- (2) तत्पश्चात् 90 मीटर धागे को एक यथासंमानी तुला पर तोल लिया जाएगा और ग्रामों में वजन मोट किया जाएगा ;
- (3) तत्पश्चात् ऐसे सूत का डेनियर, इस स्पष्टीकरण के खंड (ii) के अन्तर्गत मोट किए गए वजन को 100 से गुणा करके निकाला जाएगा ;
- (4) प्लाई किए हुए सम्बन्धित सूत की दशा में, इस स्पष्टीकरण के खंड (iii) के अन्तर्गत निकाले गए डेनियर को उस सूत में की प्लाई की संख्या से भाग दिया जाएगा जिससे कि एक प्लाई सूत का डेनियर निकाला जा सके।

[सं. 55/78 कां. सं. 345/15/76-टी०आर०यू०]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 130/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts textured yarn of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item II(i)(b) of item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Textured yarn produced out of Base yarn.	The duty for the time being leviable on the Base yarn if not already paid plus five rupees per kilogram.
2.	Other textured yarn:—	(Rs. per kilogram)
	(a) Polyamide (nylon) Textured yarn	
	(i) below 38.5 deniers.	63.80
	(ii) 38.5 deniers and above but below 88 deniers.	56.80
	(iii) 88 deniers and above but below 121 deniers.	49.80
	(iv) 121 deniers and above but below 165 deniers.	42.80
	(v) 165 deniers and above.	24.60

(b) Polyester textured yarn:—

(i) below 33 deniers.	82.00
(ii) 33 deniers and above but below 82.5 deniers.	75.00
(iii) 82.5 deniers and above but below 110 deniers.	68.00
(iv) 110 deniers and above.	54.00
(c) Others.	90.00

Explanation I:—“base yarn” means yarn falling under sub-item II (i) (a) of Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from which textured yarn has been produced;

Explanation II:—the denier of “other textured yarn” shall be determined in the manner specified below, namely:—

- 90 metres of yarn shall be measured off using a wrap reel ensuring just sufficient tension during reeling to remove the crimp but not to stretch the yarn;
- The said 90 metres of yarn shall then be weighed on a precision balance and the weight in grams noted;
- The denier of such yarn shall thereafter be calculated by multiplying the weight noted under clause (ii) of this Explanation by 100;
- In the case of plied textured yarn, the denier so calculated under clause (iii) of this Explanation shall be divided by the number of plies contained in such yarn so as to arrive at the denier of single ply yarn.

[No. 55/78/F. No. 345/15/76-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 118(अ).—वित्त विधेयक, 1978 के खंड 37 के उपखंड (4), जो खंड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11घ, 11ङ और 68 के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क्य माल का वित्त विधेयक, 1978 के खंड 37 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 63/78/फा० सं० टी०एस०/14/78-टी०आर०यू०]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 118(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 37 of the Finance Bill, 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts the excisable goods falling under Item Nos. 11D, 11E and 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 37 of the Finance Bill, 1978.

[No. 63/78/F. No. TS/14/78-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 119(अ).—वित्त विधेयक, 1978 के खंड 37 के उपखंड (4), जो खंड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का

बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11घ, 11ङ और 68 के अन्तर्गत आने वाले माल से निम्न उत्पाद-शुल्क्य माल को, जिसकी बाबत पूर्वोक्त नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन एक अधिसूचना, उस माल पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई है जितना उसके विनिर्माण में प्रयुक्त ऐसे अन्य उपाद-शुल्क्य माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मध्यवर्ती उत्पाद” कहा गया है) जो संबन्धित अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट है, पहले ही दिए जा चुके उत्पाद-शुल्क की रकम के बराबर हो, उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से, जितना संबन्धित अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती उत्पादों पर पहले ही दिए जा चुके उत्पाद शुल्क के बराबर है, छूट देती है।

[सं० 64/78/फा० सं० टी०एस०/14/78-टी०आर०यू०]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 37 of the Finance Bill, 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts excisable goods [other than those falling under Item No. 11D, 11E and 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] in respect of which notifications under sub-rule (1) of rule 8 of the aforesaid rules have been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the amount of the duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter referred to as “intermediate products”) used in their manufacture and which are specified in the respective notifications, from so much of the special duty of excise leviable thereon as is equivalent to the special duty of excise already paid on the intermediate products specified in the respective notifications.

[No. 64/78/F. No. TS/14/78-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 120(अ).—वित्त विधेयक, 1978 के खंड 37 के उपखंड (5), जो खंड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12, 12क और 191क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क के अर्धवर्धन किया गया है और जहां ऐसे माल का भारत के बाहर किसी देश या राज्य क्षेत्र को जो नेपाल और भूटान से निम्न हो, निर्यात करने पर केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 12 और 12क के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने उक्त नियम 191क के अधीन घोषणा द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर दिए गए उत्पाद-शुल्क पर कोई रिबेट दिए जाने को अनुज्ञा दी है बल्कि, विशेष उत्पाद-शुल्क का रिबेट भी उन्हीं शर्तों पर दिया जाएगा जो शर्तें उत्पाद-शुल्क के रिबेट को लागू हैं।

[सं० 66/78/फा० सं० टी०एस०/14/78-टी०आर०यू०]

CENTRAL EXCISES

सारणी

G.S.R. 120(E).—In exercise of the powers conferred by rules 12, 12A and 191-A of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 37 of the Finance Bill, 1978 which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid clause and where on the export of such goods to any country or territory outside India, other than Nepal, and Bhutan, the Central Government, by a notification under the said rules 12 and 12A or the Central Board of Excise and Customs, by a declaration under the said rule 191-A, as the case may be, has permitted the rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of the special duty of excise shall also be made subject to the same conditions as govern the rebate of excise duty.

[No. 66/78/F. No. TS/14/78-TRU]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 121(घ).—वित्त विधेयक, 1978 के खंड 37 के उपखंड (5), जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि जहाँ कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क दिए जाने के बाधितस्वाधीन है और जहाँ केन्द्रीय सरकार, ने, उक्त नियम 191-ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क्य माल से बन्धपत्राधीन विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण को अनुज्ञा दी है, वहाँ ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल से बन्धपत्राधीन ऐसी वस्तुओं का विनिर्माण भी पूर्वोक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, उन्ही शर्तों के अध्वधीन अनुज्ञेय होगा जो पूर्वोक्त नियम 191-ख के अधीन ऐसे विनिर्माण को लागू है।

[सं० 67/78/फा० सं० टी० एम०/14/78-टी० आर० यं०]

लज्जा राम, उप सचिव

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by rule 191-B of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 37 of the Finance Bill, 1978 which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods are liable to special duty of excise under the aforesaid clause and where the Central Government has, by a notification issued under the said rule 191-B, permitted the manufacture of specified articles, in bond, from specified excisable goods, manufacture of such articles, in bond, from such excisable goods shall also be permissible for the purposes of the aforesaid clause subject to the same conditions as govern such manufacture under the aforesaid rule 191-B.

[No. 67/78/F. No. TS/14/78-TRU]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 122(घ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग या राजस्व और बीमा विभाग), या राजस्व और बैंकिंग विभाग, जैसी भी स्थिति हो, की वे अधिसूचनाएँ, जो इससे उपावद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तन्धानों प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रीति से, जैसी भी स्थिति हो, संशोधित या और संशोधित की जाएंगी।

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	17/70-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970	उक्त अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 12 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :— “मखनिया दूध चूर्ण, जिसमें ऐसा चूर्ण नहीं है जिससे बच्चों के आहार के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया हो।”
2.	26 ख/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 मार्च, 1972	उक्त अधिसूचना में, “अपशिष्ट पाली-अमाइड (नाइलोन) सूत और धागे” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर “असेलुलोसी अपशिष्ट” शब्द रखे जाएंगे।
3.	179/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 सितम्बर, 1973	उक्त अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में, क्रम सं० 8 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी।
4.	9/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जनवरी, 1974	उक्त अधिसूचना में, “मद सं० 11क की उपमद (4)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षर के स्थान पर “मद म० 11क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।
5.	45/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974	उक्त अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर “तीस प्रतिशत सूक्ष्माभ्रार” प्रविष्टि रखी जाएगी।
6.	168/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मई, 1976	उक्त अधिसूचना में, “अपशिष्ट पालिस्टर सूत और धागे” शब्दों के स्थान पर “असेलुलोसी अपशिष्ट” शब्द रखे जायेंगे।
7.	275/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 अगस्त, 1977	उक्त अधिसूचना से उपावद्ध सारणी में,— (1) क्रम सं० 1(क) (iii) के सामने स्तम्भ (3) और (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः “3000” और “5000” प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी— (ii) क्रम सं० 1(ख) के सामने स्तम्भ (3) और (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः “500” और “1500” प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी।
8.	279/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 अगस्त, 1977	उक्त अधिसूचना में, “की उपमद I या उपमद II के अंतर्गत सम्मिलित कती रही” शब्दों और अंकों के स्थान पर “के अंतर्गत आने वाली रही” शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 37/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue or Department of Revenue and Insurance) or the Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No. and date	Amendment
(1)	(2)
(1)	(3)
1. 17/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970	In the Schedule annexed to the said notification, for the entry against Sl. No. 12, the following entry shall be substituted, namely:— "Skimmed milk powder, but excluding such powder specially prepared for feeding of infants." ;
2. 26 B/72-Central Excises, dated the 18th March, 1972.	In the said notification, for the words and brackets "wastes of polyamide (nylon) fibre and yarn", the words "non-cellulosic wastes" shall be substituted;
3. 179/73-Central Excises, dated the 15th September, 1973.	In the Table annexed to the said notification, S. No. 8 and the entries relating thereto shall be omitted;
4. 9/74-Central Excises, dated the 26th January, 1974.	In the said notification, for the words, brackets, and figures and letters "sub-item (4) of Item No. 11A", the word, figures and letters "Item No. 11A" shall be substituted;
5. 45/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974.	In the Table annexed to the said notification, for the entry in column (3) against S. No. 1, the entry "Thirty per cent ad valorem" shall be substituted;
6. 168/76-Central Excises, dated the 17th May, 1976.	In the said notification, for the words "wastes of polyester fibre and yarn", the words "non-cellulosic wastes" shall be substituted;
7. 275/77-Central Excises, dated the 12th August, 1977.	In the Table annexed to the said Notification:— (i) for the entries in column (3) and column (4) against S. No. 1 (a) (iii), the entries "3000" and "5000" shall, respectively, be substituted; (ii) for the entries in columns (3) and (4) against S. No. 1(b), the entries "500" and "1500" shall, respectively, be substituted;
8. 279/77-Central Excises, dated the 12th August, 1977.	In the said notification, for the words and figures "drawn wastes falling under sub-item I or sub-item II of", the words "wastes falling under" shall be substituted.

[No. 37/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं०का०नि० 123(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 248/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1977 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची को संव० 1ख के अन्तर्गत आने वाले मखनिया दूध चूर्ण को अपनी माला को, जितनी मखनिया दूध चूर्ण के उत्पादन वाले उमी कारखाने के परिसर में द्रव दूध को फिर से तैयार करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उस पर उद्घृष्टणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है —

परन्तु जहाँ ऐसा उपयोग उत्पादन के कारखाने से भिन्न किसी स्थान में किया जाता है वहाँ उस स्थिति में भी छूट अनुज्ञेय होगी जब —

- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक कलेक्टर के समाधान प्रद रूप में यह साबित हो जाए कि ऐसे मखनिया दूध चूर्ण को द्रव दूध को फिर से तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाना आवश्यक है, और
- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उप-वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

[सं० 38/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 123(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 248/77-Central Excises, dated the 23rd July, 1977, the Central Government hereby exempts, from the whole of duty of excise leviable thereon, such quantities of skimmed milk powder, falling under Item No. 1B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as are used for the regeneration of liquid milk within the premises of the same factory of production of the skimmed milk powder :

Provided that where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption shall also be allowable, if—

- it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such skimmed milk powder is intended for use for the regeneration of liquid milk; and
- the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed.

[No. 38/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं०का०नि० 124(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग की अधिसूचना

सं० 60/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 16 मार्च, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

“सारणी

क्रम सं०	सं०	वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3	4
1.	6	मोटर स्प्रिट	पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर पर दो हजार एक सौ छियासी रुपए पचपन पैसे प्रति किलोलीटर।
2.	9	डीजल तेल जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है	पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर पर एक सौ अड़तालीस रुपए हीस पैसे प्रति किलोलीटर।
3	10	मट्टी तेल, जिसमें निम्न गन्धक ईंधन तेल नहीं है	पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर पर एक सौ दसवीस रुपए पांच पैसे प्रति किलोलीटर।
4	10	निम्न गन्धक ईंधन तेल	पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर पर एक सौ अड़तालीस रुपए पचहत्तर पैसे प्रति किलोलीटर।
5	11क(3)	मोम	बीस प्रतिशत मूलानुसार घन पांच सौ दस रुपए प्रति मीटरी टन।
6	11ख	मिश्रित या भौगिक स्नेहक तेल और ग्रीस	कुछ नहीं।”

[सं० 41/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 124(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 60/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976, namely:—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“TABLE

S. No.	Item No.	Description	Rate of duty
1	2	3	4
1.	6	Motor Spirit	Two thousand one hundred and forty-six rupees and fifty-five paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.

1	2	3	4
2.	9	Diesel oil, and otherwise specified.	One hundred and forty eight rupees and thirty paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer
3.	10	Furnace Oil, other than low Sulphur Fuel Oil.	One hundred and twenty-one rupees and five paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
4.	10	Low Sulphur Fuel Oil	One hundred and thirty-eight rupees and seventy-five paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
5.	11A(3)	Waxes	Twenty per cent. ad valorem plus five hundred and ten rupees per metric tonne.
6.	11B	Blended or compounded lubricating oil and greases.	Nil ”

[No. 41/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० वि० 125(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 344/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

“सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क की दर
1	2	3
1.	परिष्कृत डीजल तेल:—	
	(क) जो हार्ड स्पीड डीजल तेल के रूप में ज्ञात प्रकार का हो	पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर पर गीन सौ चौरासी रुपए अस्सी पैसे प्रति किलोलीटर।
	(ख) बाक्सहाउट बिलायक तेल	पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर पर पांच सौ बाइस रुपए पचहत्तर पैसे प्रति किलोलीटर।
	(ग) अन्य	पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर पर चार सौ अठारह रुपए पचास पैसे प्रति किलोलीटर।
2.	वाष्पन तेल	पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड पर थर्मोमीटर पर चार सौ दस रुपए दस पैसे प्रति किलोलीटर।”

[सं० 42/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 125(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 344/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977, namely :—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :—

"TABLE

S.No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1. Refined Diesel Oil—		
(a)	of the type known as High Speed Diesel Oil	Three hundred and eighty four rupees and eight paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
(b)	Bauxite Solvent Oil.	Five hundred and twenty two rupees and seventy-five paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
(c)	Others	Four hundred and eighteen rupees and fifty paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
2. Vaporizing Oil		
		Four hundred and ten rupees and ten paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer."

[No. 42/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां.कां.वि. 126(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 345/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सारणी

क्रम सं.	सद सं.	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	11क(4)	प्रघावन तेल	छह सौ रुपये प्रति मीटरी टन
2	11क(4)	घरेलू तेल	पाँच सौ नब्बे रुपये सत्तर पैसे प्रति मीटरी टन।
3	11क(4)	खनिज तेल जिसका सामान्य नाम ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक (टी ओ बी एस) या ट्रांसफार्मर आयल फीड स्टॉक	रुपए पचास पैसे प्रति मीटरी टन।

(1) (2) (3) (4)

(टी ओ एफ एस) है।

- 4 11क(5) कोक, रिफाइनरी गैस और खनिज कोल्जा तेल बीस प्रतिशत मल्यानुसार
- 5 11क(5) सभी उत्पाद जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं. 11क की उपमद (5) के अन्तर्गत आते हैं और कोक, रिफाइनरी गैस तथा खनिज कोल्जा तेल से मिले हैं।

[सं. 43/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 126(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 345/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977, namely :—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :—

"TABLE

S. Item No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1. 11A(4)	Flushing Oil	Six hundred rupees per metric tonne.
2. 11A(4)	Household Oil.	Five hundred and ninety rupees and seventy paise per metric tonne.
3. 11A(4)	Mineral Oil commonly known as Transformer Oil Base Stock (TOBS) or Transformer Oil Feed Stock (TOFS)	One thousand one hundred and seventy-two rupees and fifty paise per metric tonne.
4. 11A(5)	Coke, refinery gases and mineral colza oil.	Twenty per cent. ad valorem.
5. 11A(5)	All products falling under sub-item (5) of Item No. 11A of the said First Schedule, other than coke, refinery gases and mineral colza oil.	Twenty per cent. ad valorem plus one hundred and ninety rupees per metric tonne."

[No. 43/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

* सांकां० 127 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11क के अंतर्गत आने वाले खनिज तेल को, जिसका सामान्य नाम स्पिडल एच बी जार्ड तेल है, उस पर उद्ब्रूणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना एक हजार एक सौ उनचास रुपए पचास पैसे प्रति मीटरी टन से अधिक है, किन्तु यह छूट निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी, अर्थात् :—

- (i) यदि सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर से अनुरोध पंक्ति के किसी अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि ऐसे तेल का उपयोग इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के विनिर्माण के लिए किया गया है, और
- (ii) यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में भी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

अनुसूची

1. पेट्रोलियम सल्फोनेट
2. व्हाइट आयल
3. लिक्विड पैराफीन।
4. कृषि छिड़काव तेल।
5. भेषजिक तेल।
6. नमनकर (प्लास्टिसाइजर) तेल।

[सं० 44/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts mineral oil commonly known as spindle HVI oil, falling under Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is excess of one thousand one hundred and forty-nine rupees and fifty paise per metric tonne, subject to the following conditions, namely :—

- (i) it is proved to the satisfaction of an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that such oil is used in the manufacture of any of the commodities specified in the Schedule hereto annexed, and
- (ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

SCHEDULE

1. Petroleum sulphonates.
2. White oils.
3. Liquid paraffins.
4. Agricultural spray oils.
5. Pharmaceutical oils.
6. Plasticizer oils.

[No. 44/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकां० 128(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 301/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख

388 G I/77—4

29 अक्टूबर, 1977 को अधिव्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11क के अंतर्गत आने वाले खनिज तेल को, जो पटसन या बिमलीपट्टम पटसन या मेस्ता रेशों या इनमें से किसी दो या अधिक के मिश्रण पटसन मिलों में बेचने (बेचिंग) के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए आयातित है, उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना तेरह रुपए पचासी पैसे प्रति मीटरी टन से अधिक है :

परन्तु यह तब जब—

- (i) सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर से अनुरोध पंक्ति के किसी अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाए कि उक्त खनिज तेल का इस प्रकार प्रयोग पटसन या बिमलीपट्टम पटसन या मेस्ता रेशों या इनमें से किसी दो या अधिक के मिश्रण पटसन मिलों में बेचने (बेचिंग) के लिए किया गया है ; और
- (ii) इस निमित्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और मोमा-शुल्क बोर्ड द्वारा समय समय पर विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

[सं० 45/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 128(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 301/77-Central Excises, dated the 29th October, 1977, the Central Government hereby exempts mineral oil falling under Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and intended to be used for the batching of jute or Bimlipatam jute or Mesta fibre or a combination of any two or more thereof in Jute mills, from so much of the duty as is in excess of thirteen rupees and eighty-five paise per metric tonne :

Provided that—

- (i) it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that the said mineral oil is so used for the batching of jute or Bimlipatam jute or Mesta fibre or a combination of any two or more thereof, in jute mills; and
- (ii) the procedure prescribed in this behalf by the Central Board of Excise and Customs from time to time is followed.

[No. 45/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकां० 129(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11घ के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद-शुल्क माल की (जो खानों से निकाले गए कोयले से, और सभी प्रकार के कोक से जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है, भिन्न है), उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ब्रूणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 46/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all excisable goods, falling under Item No. 11D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (other than coal raised from the mines, and coke, all sorts, not elsewhere specified), from the whole of the duty of excise leviable thereon under the said Act.

[No. 46/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. कां. निं. 130(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क माल को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 11 घ के अन्तर्गत आता है, उक्त अधिनियम के अधिन उम पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) को तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	कौकिल कोयला	सात रुपये प्रति मीट्रो टन।
2.	अन्य, जिसमें हार्ड कोक नहीं है	पाच रुपये प्रति मीट्रो टन।

[सं. 47/78]

CENTRAL EXCISES

GSR 130 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (2) of the Table below and falling under Item No. 11D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Description of goods	Rate of duty
(1)	(2)	(3)
1.	Cooking coal	Seven rupees per metric tonne.
2.	Others but not including hard coke.	Five rupees per metric tonne.

[No. 47/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. कां. निं. 131(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 11घ के अन्तर्गत आने वाले कोयले के परिमाण के उस भाग को, जिसका प्रयोग उक्त मद के अन्तर्गत आने वाले कोक के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उसी खान में किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “खान” से कोई ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जहाँ कोयले की खान या अभिव्राप्ति के प्रयोजन के लिए कोई संक्रिया चलायी जाती रही है या चलायी जा रही है और इसके अन्तर्गत उसकी परिमीमां, भी आती है।

[सं. 48/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts that part of the quantity of coal falling under Item No. 11D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944),

as is used within the same mine as raw material in the production of coke, falling under the said Item, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

Explanation.—For the purposes of this notification, “mine” means any excavation where any operation for the purpose of searching for or obtaining coal has been or is being carried on and includes the precincts thereof.

[No. 48/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. कां. निं. 132(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56 क के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 22/62 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 दिसम्बर, 1962 में निम्नलिखित सशोधन और करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, मद सं. 41 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तर्गत की जाएगी, अर्थात्—

“42 कोयला (विगनाइट को छोड़कर) और कोक जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।”

[सं. 49/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 223/62-Central Excises, dated the 29th December, 1962.

In the said notification, after Item No. 41, the following item shall be inserted, namely :—

“42. Coal (excluding lignite), and coke not elsewhere specified.”

[No. 49/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. कां. निं. 133(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 11 घ के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क माल को, जो उसी मद के अन्तर्गत आने वाले किसी अन्य उत्पाद-शुल्क उत्पाद से बनाये गये हों और जिन पर उत्पाद-शुल्क की समुचित रकम अदा कर दी गई हो, उनमें उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उम उत्पाद पर इस प्रकार दिये गये शुल्क के बराबर हो।

[सं. 50/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby exempts excisable goods, falling under Item No. 11D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), if made from another excisable product falling under the same Item and on which the appropriate amount of the duty of excise has been paid, from so much of the duty of excise as is equivalent to the duty so paid on that product.

[No. 50/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 134(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11 ड के अन्तर्गत आने वाली विद्युत को, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह तब जब सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान-प्रव रूप में यह साबित हो जाये कि ऐसी विद्युत जनित्र केन्द्रों द्वारा उत्पादित की जाती है और उत्पादन प्रयोजनों के लिये उन केन्द्रों के सहायक संयंत्रों को प्रदाय की जाती है।

[सं० 51/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electricity falling under Item No. 11E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such electricity is produced by generating stations and supplied to the auxiliary plants of such stations for generation purposes.

[No. 51/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 135(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11 ड के अन्तर्गत आने वाली विद्युत को, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह तब जब सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान-प्रद रूप में यह साबित हो जाये कि ऐसी विद्युत का उत्पादन किसी जनित्र केन्द्र, औद्योगिक एकक या स्थापन में (जिसमें रेलवे भी है) किया जाता है और उसका प्रयोग, यथास्थिति, ऐसे जनित्र केन्द्र (जिसमें उसका सहायक संयंत्र, यदि कोई हो, भी है), औद्योगिक एकक या अन्य स्थापन में किया जाता है।

[सं० 52/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electricity falling under Item No. 11E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such electricity is produced by a generating station, an industrial unit or an establishment (including Railways) and used in such generating station (including its auxiliary plant, if any), industrial unit or other establishment, as the case may be.

[52/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 136(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वहनीय जनित्रों (जिनमें डाइजलमों और आल्टरनेटर भी

हैं) और विद्युत बैटरियों द्वारा उत्पादित विद्युत धारा को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11 ड के अन्तर्गत आती है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं० 53/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electricity falling under Item No. 11E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), produced by portable generators (including dynamos and alternators) and electric batteries, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 53/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 137(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11 ड के अन्तर्गत आने वाली विद्युत को जिसका प्रदाय कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिये किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु—

(क) छूट की मात्रा विद्युत के उतने परिमाण तक सीमित रहेगी जो जनित्र केन्द्र ने, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान-प्रव रूप में, कृषि प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाई गई दर्शित की गई है; और

(ख) ऐसे परिमाण की बाबत शुल्क की रकम—

(i) प्रत्येक मास के अन्त में संगणित की जायेगी, और

(ii) उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के नियम 173 छ में निर्दिष्ट निर्धारित के चालू खाते में जमा की जायेगी;

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के अधीन वी गई छूट का लाभ तभी मिलेगा जब जनित्र केन्द्र का भारसाधक प्राधिकारी, सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर के समाधान-प्रद रूप में यह सबूत पेश करे कि उस जनित्र केन्द्र ने ऐसा लाभ उन व्यक्तियों को संकयमत कर दिया है जिन्हें विद्युत की उक्त मात्रा का प्रदाय किया गया है।

[सं० 54/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 137(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electricity falling under Item No. 11E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and supplied for use for agricultural purposes, from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that—

(a) the quantum of exemption shall be restricted to such quantity of electricity as is shown by the generating station to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise to have been used for agricultural purpose; and

(b) the amount of duty in respect of such quantity shall be—

(i) computed at the end of each month; and

(ii) credited to the assessee's account current referred to in rule 173G of the said Central Excise Rules :

Provided further that the benefit of the exemption under this notification shall be available only if the authority in charge of the generating station produces proof to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such benefit has been passed on by such generating station to the persons to whom the said quantity of electricity has been supplied.

[No. 54/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां.कां.निं. 138 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची मद सं० 30क के अन्तर्गत आने वाले शक्ति चालित पम्पों को, जो इससे उपाय सारणी में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

सारणी

ऐसी शक्ति चालित पम्प, जिनकी पानी निकालने के लिए मुख्यतः डिजाइन की गई है, अर्थात्:—

- (1) सेंट्री फ्यूगल पम्प (क्षेत्रीय या उर्ध्वाधर पम्प);
- (2) गहरे नलकूप टर्बाइन पम्प;
- (3) निमज्जक पम्प; और
- (4) अक्षरीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह उर्ध्वाधर पम्प

[सं० 57/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 138 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts power driven pumps falling under Item No. 30A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in the Table annexed hereto from the whole of the duty of excise leviable thereon.

TABLE

Power driven pumps primarily designed for handling water, namely:—

- (i) Centrifugal pumps (horizontal or vertical pumps);
- (ii) Deep tube-well turbine pumps;
- (iii) Submersible pumps; and
- (iv) Axial flow and mixed flow vertical pumps.

[No. 57/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां.कां.निं. 139 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले, और इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के प्रसारण बूरदर्शन अभिप्राही सेटों को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पांच प्रतिशत मूल्य-नुसार से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन
(1)	(2)

1. सिंगल चैनल सेट—

- (क) जिनके स्क्रीन का आकार छत्तीस सेंटीमीटर से अधिक न हो और जिनका मूल्य एक हजार चार सौ रुपये प्रति सेट से अधिक न हो।

(1)

(2)

- (ख) जिनके स्क्रीन का आकार छत्तीस सेंटीमीटर से अधिक हो और जिनका मूल्य एक हजार छह सौ रुपये प्रति सेट से अधिक न हो।

2. मल्टी चैनल सेट—

- (क) जिनके स्क्रीन का आकार छत्तीस सेंटीमीटर से अधिक न हो और जिनका मूल्य एक हजार पांच सौ पचास रुपये प्रति सेट से अधिक न हो।

- (ख) जिनके स्क्रीन का आकार छत्तीस सेंटीमीटर से अधिक हो और जिनका मूल्य एक हजार सात सौ पचास रुपये से अधिक न हो।

2 इस अधिसूचना की कोई भी बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी यदि, विक्रय उपरान्त सर्विस करार बर्तृकने के परिणाम स्वरूप ऐसे करार के अधीन पहले एम वर्ष के लिए सदाय की रकम, सेट के मूल्य सहित, ऐसे सेट की बाबत उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मूल्य सीमा से अधिक हो जाए।

[सं० 58/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts broadcast television receiver sets, falling under sub-item (1) of Item No. 33A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of five per cent *ad valorem*.

TABLE

S.No.	Description
(1)	(2)
1. Single channel sets—	
(a)	of screen size not exceeding thirty-six centimetres and of a value not exceeding one thousand four hundred rupees per set.
(b)	of screen size exceeding thirty-six centimetres and of a value not exceeding one thousand six hundred rupee per set.
2. Multi-channel sets—	
(a)	of screen size not exceeding thirty-six centimetres and of a value not exceeding one thousand five hundred and fifty rupees per set.
(b)	of screen size exceeding thirty-six centimetres and of a value not exceeding one thousand seven hundred and fifty rupees per set.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer if, as a result of entering into an after-sale service agreement, the amount of payment for the first one year under such agreement, together with the value of the set, exceeds the value limit specified in column (2) of the said Table in respect of such set.

[No. 58/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां.कां.निं. 140 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34-I की उपमद (1) के

अर्न्तगत आने वाले तीन पहियों के आटोरिक्षाओं को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो, किन्तु यह छूट निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी, अर्थात् :—

(क) यदि ऐसे अधिकारी का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर से अन्यान्य की पक्ति का न हो (जिसे इसमें इसका पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है), यह समाधान हो जाए कि ऐसे आटोरिक्षा व्यक्तियों के परिवहन के लिए एकमात्र भाड़े पर प्रयोग लाए जाने के लिए आणयित है; और

(ख) यदि विनिर्माता उक्त अधिकारी को, किसी ऐसे अधिकारी का जिसे इस निमित्त सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकारी ने प्राधिकृत किया हो, शुल्क का सवाय करने के पश्चात् विनिर्माता द्वारा तीन पहिये वाले आटोरिक्षाओं को निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर, जिसे उक्त अधिकारी अनुज्ञात करे, इस आशय का एक प्रमाण पत्र दे कि ऐसा प्रत्येक आटोरिक्षा व्यक्तियों के परिवहन के लिए केवल भाड़े पर प्रयोग में लाए जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

[सं० 59/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 140(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts three-wheeled autorickshaws, falling under sub-item (1) of Item No. 34I of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent ad valorem, subject to the following conditions, that—

- (a) an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (hereinafter referred to as the said officer) is satisfied that such autorickshaws are intended to be used solely on hire for transport of persons; and
- (b) the manufacturer furnishes to the said officer a certificate from an officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the three-wheeled autorickshaws by the manufacturer after payment of duty, or such extended period as the said officer may allow, to the effect that each such autorickshaw has been registered for use solely on hire for transport of persons.

[No. 59/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकां० 141 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34—III के अन्तर्गत आने वाले ट्रिपलों को, (जिनमें उनकी चैसिस भी है), उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना छह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ट्रैलर की “चैसिस” से ट्रैलर का ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जिसमें बाड़ी तो न हो किन्तु धुरी, पहिये, और कर्षण की व्यवस्था हो।

[सं० 60/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts trailers (including chassis thereof), falling under Item No. 34III of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of six per cent ad valorem.

Explanation.—For the purposes of this notification, a “chassis” of a trailer shall mean an assembly of a trailer without a body but with axle, wheels and towing arrangement.

[No. 60/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकां० 142 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग, जसी भी स्थिति हो, की वे अधिसूचनाएँ जो इससे उपावद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, निम्नलिखित रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी, अर्थात् :—

उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिसूचना में, “मोटरयान और ट्रैक्टर (जिनके अन्तर्गत कृषि ट्रैक्टर भी हैं)” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहाँ वहाँ भी आते हों, “मोटरयान और ट्रैक्टर, जिनमें ट्रैलर भी हैं” शब्द रखे जाएंगे।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख
1	2
1.	99/71-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 मई, 1971
2.	101/71-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 मई, 1971
3.	102/1-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 मई, 1971
4.	153/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971
5.	155/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971
6.	97/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972
7.	73/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973
8.	197/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 जून, 1977।

सं० 61/78

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be amended or further amended, as the case may be, in the following manner, namely :—

In each of the notifications specified in the said Table, for the words and brackets “motor vehicles and tractors (including agricultural tractors)”, wherever they occur, the words “motor vehicles and tractors, including trailers” shall be substituted.

TABLE

S.No	Notification No. and date
(1)	(2)
1.	99/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
2.	101/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
3.	102/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
4.	153/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.
5.	155/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.
6.	97/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
7.	73/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
8.	197/77-Central Excises, dated the 23rd June, 1977.

[No. 61/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 143(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाध्व मारणी में, क्रम० सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) में—

- (i) “मोटर यानों और ट्रैक्टरों” प्रविष्टि के स्थान पर, “मोटर-यानों और ट्रैक्टरों, जिनमें ट्रेलर भी हैं” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ii) अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:—
“कोयला (लिग्नाइट को छोड़कर), और ऐसा कोक जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है”।

[सं० 65/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in column (2) against serial No. 1,—

- (i) for the entry “Motor vehicles and Tractors”, the entry “Motor vehicles and Tractors, including Trailers” shall be substituted;
- (ii) the following entry shall be added at the end, namely:—

“Coal (excluding lignite), and coke not elsewhere specified”.

[65/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 144(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11-ड के अन्तर्गत आने वाली विद्युत् को, उक्त नियमों के नियम 174 के प्रवर्तन से छूट देती है:—

परन्तु यह तब जब कि,—

- (i) ऐसी विद्युत् का उत्पादन किसी उत्पादन केन्द्र (जिसके अन्तर्गत उसका सहायक संयंत्र भी है), औद्योगिक एकक या स्थापन (जिसके अन्तर्गत रेल भी है) द्वारा, एक मात्र आन्तरिक प्रयोग के लिए हो जैसा, कि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 52/78, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में विनिर्दिष्ट है, किया जाता हो और उसे उक्त अधिसूचना के अधीन छूट मिलती हो,
- (ii) ऐसी विद्युत् का उत्पादन बहनीय जलबलों (जिनके अन्तर्गत डाइनमो और आल्टरनेटर भी हैं) या विद्युत् बैटरियों द्वारा, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 53/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में विनिर्दिष्ट है, किया जाता हो और उसे उक्त अधिसूचना के अधीन छूट मिलती हो।

[सं० 68/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 144(E).—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts from the operation of rule 174 of the said rules electricity falling under Item No. 11E of the First Schedule of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944):

Provided that such electricity,—

- (i) is produced exclusively for internal use by a generating station (including its auxiliary plant), an industrial unit or an establishment (including Rail ways), as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 52/78-Central Excises dated the 1st March, 1978, and the same remain exempt under the said notification;
- (ii) is produced by portable generators (including dynamos and alternators) or electric batteries, as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 53/78-Central Excises, dated the 1st March 1978 and the same remains exempt under the said notification.

[No. 68/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 145(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के, यथास्थिति, राजस्व और बीमा विभाग, या राजस्व और बैकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 171/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जून, 1969, 121/70 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 मार्च, 1970, 179/71 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 सितम्बर, 1971, 195/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 नवम्बर, 1971, 117/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1972, 161/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 अगस्त, 1973, 33/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1976 और 188/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 के अनुक्रम में निम्नलिखित उत्पाद-शुल्क मास का ऐसे उत्पाद-शुल्क मास के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त नियमों के अध्याय 7-क के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:—

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11-घ और 11-ड में समाविष्ट मास।

[सं० 69/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 173-A of the Central Excise Rules, 1944, and in continuation of the notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue and Banking, as the case may be, Nos. 171/69 Central Excises, dated the 21st June, 1969, 121/70-Central Excises, dated the 28th May, 1970, 179/71-Central Excises, dated the 23rd September, 1971, 195/71-Central Excises, dated the 12th November, 1971, 117/72-Central Excises, dated the 25th March, 1972, 161/73-Central Excises, dated the 16th August, 1973, 33/76-Central Excises, dated the 28th February, 1976 and 188/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby further specifies the following excisable goods as excisable goods to which the provision of Chapter VII-A of the said rules shall apply, namely :—

The goods comprised in Items Nos. 11D and 11F of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[No. 69/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० नि० 145(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व खंड या राजस्व विभाग या राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व और बीमा विभाग, जैसी भी व्यक्ति हो, की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात्—

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख
(1)	(2)
1.	सी०ई०आर० 8(3)/56-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 जनवरी, 1956।
2.	97/60-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 1960।
3.	37/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973।
4.	123/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 मई, 1975।
5.	128/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मार्च, 1976।
6.	243/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
7.	245/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
8.	278/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 अगस्त, 1977।
9.	6/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 जनवरी, 1978।

[सं० 70/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Revenue Division or Department of Revenue or Department of Revenue and Insurance) or the Department of Revenue and Banking, as the case may be, namely :—

TABLE

S.No.	Notification No. and Date
(1)	(2)
1.	CER.8(3)/56-Central Excises, dated the 14th January, 1956.
2.	97/60-Central Excises, dated the 30th June, 1960.
3.	37/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
4.	123/75-Central Excises, dated the 5th May, 1975.

(1) (2)

5. 128/76-Central Excises, dated the 27th March, 1976.
6. 243/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
7. 245/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
8. 278/77-Central Excises, dated the 12th August, 1977.
9. 6/78-Central Excises, dated the 13th January, 1978.

[No. 70/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० नि० 147(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्ग के उत्पाद-शुल्क माल को (जिसे हमसे हमके पश्चात् 'विनिर्दिष्ट माल' कहा गया है), जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की प्रथम अनुसूची को उस मद के अन्तर्गत आता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, ऐसे उत्पाद-शुल्क माल के पांच लाख रुपए से अधिक के सकल मूल्य तक गृह उपभोग के लिए प्रथम निकासी की वाबत जो निकासी किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् विनिर्दिष्ट द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से की जाती है, उस पर उद्घाटनीय समस्त शुल्क उत्पाद से छूट देती है, किन्तु यह छूट निम्न-लिखित शर्तों पर होगी, अर्थात्—

(क) इस अधिसूचना में अन्तर्निष्ठ छूट ऐसे विनिर्दिष्ट को,—

(i) 1978/79 के वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं होगी यदि विनिर्दिष्ट माल का सकल मूल्य जिसकी निकासी, यदि कोई हो, गृह उपभोग के लिए 1 अप्रैल, 1977 को प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से की जाती है, 13.75 लाख रुपए से अधिक हो गया हो, और

(ii) 1978/79 के वित्तीय वर्ष के बाद के वित्तीय वर्षों के दौरान लागू नहीं होगी यदि विनिर्दिष्ट माल की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसी निकासी, यदि कोई हो, पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गई हो;

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान को गई निकासियों की मुख्य की गणना उक्त सारणी के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक क्रम संख्या के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सभी माल के लिए की जाएगी।

(ग) जहाँ विनिर्दिष्ट माल का उत्पादन करने वाला कारखाना किसी वित्तीय वर्ष के विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्दिष्टों द्वारा चलाया जाता है वहाँ ऐसे किसी कारखाने से शुल्क की शून्य दर से निकासी किए गए विनिर्दिष्ट माल का मूल्य पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 1—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, पद "मूल्य" से वह मूल्य अभिप्रेत है जो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "मिल बोर्ड" से ऐसा अतिरिक्त समजातीय बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी सट्टाई 0.50 मिली मोटर से अधिक हो और जो बिना छने या छने मिश्रित रस्सी कागजों से और अन्य जघ्य सूदे से, किन्तु उसमें किसी रंजक पदार्थ को मिलाए बिना बनाया गया हो;

(ख) "स्टू बोर्ड" से ऐसा बोर्ड अभिप्रेत है जिसे अशत पकाये गये अतिरिक्त स्टा या बगार या घासों या अन्य कृषि अवशेषों या इनमें से किसी के मिश्रण से पूर्णतः या प्रमुखतः बनाया गया हो, परन्तु—

(i) किसी ऐसी अन्य सामग्री की, जिसे प्रयोग में लाया गया हो, माला संघटकों के कुल भार के एक-तिहाई भार से अधिक नहीं होगी, और

(ii) ऐसे बोर्ड को विशेष रूप से संपीड़ित नहीं किया जाएगा और उसकी किमी भी सतह पर कोई कागज छिपकाया नहीं जाएगा।

स्पष्टीकरण 3.—इस अधिसूचना के अधीन निकासी का मूल्य अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए—

(i) उक्त सारणी के क्रम सं० 6 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल की बाबत—

(क) उस माल का मूल्य जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 114/73 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1973 के अधीन शुल्क से छूट दी गई है, गणना में नहीं लिया जाएगा;

(ख) शक्ति की सहायता के बिना विनिर्मित उक्त माल का मूल्य गणना में नहीं लिया जाएगा।

(ii) उक्त सारणी की क्रम संख्या 12 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन माल की बाबत, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 63/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 से उपाखण्ड सारणी की क्रम सं० 2 में वर्णित खुशबूदार केश तेलों का मूल्य, जिन पर उसमें विनिर्दिष्ट शक्तों के अधीन शुल्क से छूट दी गई है, गणना में नहीं लिया जाएगा,

(iii) उक्त सारणी की क्रम सं० 25 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल की बाबत जहाँ कोई विनिर्माता केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या खादी और प्रोमोशन आयोग द्वारा संचालित भाण्ड विकास केन्द्र की या उसके द्वारा अनुरक्षित किसी भट्टी में चीनी मिट्टी के या पोर्सलीन के या दोनों के भाण्डों को पकवाता है वहाँ उक्त विनिर्माता के चीनी मिट्टी के या पोर्सलीन के या दोनों के भाण्डों का, जो ऐसी भट्टी में पकवाए गए हैं, मूल्य गणना में लिया जाएगा;

(iv) उक्त सारणी की क्रम सं० 37 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल की बाबत, उस माल का मूल्य जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 33/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 के अधीन शुल्क से छूट दी गई है, गणना में नहीं लिया जाएगा;

(v) उक्त सारणी की क्रम सं० 38 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल की बाबत उस माल का मूल्य जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 51/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 के अधीन शुल्क से छूट दी गई है, गणना में नहीं लिया जाएगा;

(vi) उक्त सारणी की क्रम सं० 41 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल की बाबत उस माल का मूल्य जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 99/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 के अधीन शुल्क से छूट दी गई है, गणना में नहीं लिया जाएगा,

(vii) उक्त सारणी की क्रम सं० 45 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल की बाबत फर्नीचर के उस सामान का मूल्य, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 91/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 अप्रैल, 1968 के अधीन

शुल्क से छूट दी गई, तथा हस्तात के फर्नीचर के भागों का मूल्य गणना में नहीं लिया जाएगा।

(viii) उक्त सारणी की क्रम सं० 50 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल की बाबत, उस माल का मूल्य, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 53/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 और 94/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970 के अधीन शुल्क से छूट दी गई है, गणना में नहीं लिया जाएगा;

(ix) उक्त सारणी की क्रम सं० 51 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल की बाबत, उस माल का मूल्य, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 99/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मई, 1970 के अधीन शुल्क से छूट दी गई है, गणना में नहीं लिया जाएगा।

2. इस अधिसूचना की कोई भी बात, जहाँ तक उक्त सारणी की क्रम सं० 41 के सामने विनिर्दिष्ट वर्णन के माल का सम्बन्ध है, ऐसे माल के उन विनिर्माताओं को लागू नहीं होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 1011/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 के अधीन या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 153/71 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 26 जुलाई, 1971 के अधीन दी गई छूट का लाभ उठाते हैं।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होगी।

सारणी

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मख सं०	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	1क	मिष्टान्न (कन्फेशनरी)।
2.	1ख	तैयार किए हुए या परिरक्षित खाद्य।
3.	1ग	खाद्य उत्पाद।
4.	1घ	एरिएटेड बाटर।
5.	12	वनस्पतिक अवाष्पशील तेल।
6.	14	वर्णक, रंग, पेंट, इनेमल, वानिश, कालिख और सेलुलॉस लैकर।
7.	14खख	मोडियम सिलिकेट।
8.	14ग	ग्लिसरीन।
9.	14घ	संश्लिष्ट कार्बनिक रंजकपदार्थ (जिसमें वर्णक रंजकपदार्थ भी हैं) और संश्लिष्ट कार्बनिक व्युत्पन्न पदार्थ जो किसी रंजन प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाते हैं।
10.	14घघ	ऐसे प्रकार के संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद जिनका प्रयोग कार्बनिक लुमिनोफोर के रूप में किया जाता है; ऐसे किस्म के उत्पाद जो प्रकाशिक विरंजक कर्मकों के रूप में जाने जाते हैं और रेशों के लिए मुख्य होते हैं।
11.	14ङ	पेटेंट या साम्प्रदायिक दवाएं।
12.	14च	प्रसाधन और टायलट निर्मितियां
13.	14चच	दांत साफ करने वाला पैस्ट (जिनके अन्तर्गत दांत की शीम भी हैं)।

1	2	3	1	2	3
14	14B	नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड (जिनके अन्तर्गत सधूम अम्ल और उनके पेनहाइड्राट भी हैं) सभी किस्म के।	30.	30	बिजली की मोटरें, सभी किस्म की, और उनके पुरजे।
15	14ज	गैस, जिनमें प्रवित और घनीभूत गैस भी हैं।	31.	30क	द्रवों के लिए शक्ति चालित पम्प (जिनके अन्तर्गत मोटर पम्प, टर्बी पम्प और मोनाब्लाक पम्पसेट भी हैं), चाहे उनमें मापन युक्तियां लगी हों या न लगी हों?
16.	15	साधन।	32.	30ख	मोटर स्टार्टर
17	15कक	कार्बनिक पृष्ठ-सक्रिय कर्मक (साधन से भिन्न); पृष्ठ-सक्रिय निमित्तियां और भुनाई के लिए निमित्तियां चाहे उनमें साधन हो या न हो।	33	31	बिजली की बैटरियों और उनके पुरजे।
18.	15ग	स्टार्च (जिनमें डेक्स्ट्रीन और अन्य प्रकार के संशोधित स्टार्च भी हैं) सभी किस्म के।	34.	32	बिजली के प्रकाश बल्ब और फ्लोरोसेंट प्रकाश ट्यूब।
19.	15घ	निम्नलिखित के लिए पालिश और ग्रीम—जूते, जपल, कर्मीचर, कर्न, बमशा, धातु, मोटरवाहन और कांच; माजने के पाउडर और पैस्ट।	35.	33	बिजली के पंखे, जिनके अन्तर्गत बिजली के पंखों के रेगुलेटर भी हैं सभी किस्म के।
20	16क	रबर के उत्पाद	36.	33ख	बिजली के तार और केबल, सभी किस्म के जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
21.	16ख	प्लास्टिक, व्याकबोर्ड, लेमिनबोर्ड, गेटबोर्ड, गहन या नर्म दीवाल बोर्ड या रीपी बोर्ड और पृष्ठलेपित पैनल; चाहे उनमें काष्ठ से निम्न कोई पदार्थ हो या न हो; कोष्ठात्मक काष्ठ पैनल, लकड़ी के गटे या बनस्पति के रेशों के निर्माण बोर्ड, चाहे वे प्राकृतिक या कृत्रिम रेजिन या वैसे ही बन्धकों से जुड़े हों या न जुड़े हों, और कृत्रिम अथवा पुनर्गठित काष्ठ जो लकड़ी की छीलन, लकड़ी की चिप, बुरादा, लकड़ी का आटा, या अन्य कठिल रूई जो प्राकृतिक या कृत्रिम रेजिन या अन्य कार्बनिक बन्धन पदार्थों से संप्रतिष्ठ हो। —चावरो, व्याकों, बोर्डों या वैसे ही पदार्थों में।	37.	33ग	घरेलू बिजली के उपकरण, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
22.	17	(1) पालिथिलीन लेपित कागज, पालिथिलीन लेपित बोर्ड, मोमी कागज, मोमी बोर्ड, पालिथिलीन अन्तर्निविष्ट कागज, पालिथिलीन अन्तर्निविष्ट बोर्ड, और बिटुमेनित बाटर प्रूफ कागज या बफती जो कागज या बफती की एक सतह को कागज या बफती की दूसरी सतह के साथ बिटुमेन से जोड़ी गई हो। (2) मिलबोर्ड और स्ट्राबोर्ड जिसके विनिर्माण में आतपन प्रक्रिया के सामान्य नाम से ज्ञात सुखाने वाली प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है।	38.	33घ	कार्यालय की मशीनें और साधन, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
23.	22क	टाइपराइटर के और वैसे ही रखन चाहे वे स्थूल पर हों या न हों।	39.	33ङ	बिजली के मफलाई मीटर।
24.	23क	कांच और कांच के बरतन।	40	34	ट्रेलर
25.	23ख	चीनी मिट्टी के बरतन और पोर्सलीन के बरतन, सभी किस्म के।	41.	34क	मोटरयानों और ट्रैक्टरों (जिनमें ट्रेलर भी हैं) के पुरजे और उपसाधन।
26	23ग	एसबमट सीमेंट के उत्पाद, सभी किस्म के, जिनके अन्तर्गत जपटी और नासीदार चाबरे, पाइप और ट्यूब तथा टाइल भी हैं।	42.	34ख	थोड़ी दूरी के परिवहन, या माल लावने, के लिए यंत्रोदित संकर्म ट्रक।
27.	28क	विद्युत् स्टाम्पन और स्तरिकायन, सभी किस्म के।	43.	37ख	सिनेमा के प्रेक्षक और उनके पुरजे।
28.	29	अन्तर्दहन इंजन, सभी किस्म के।	44.	37ग	फोटोग्राफी के साधन और सामान।
29.	29क	प्रणोतन और वातानुकूलन साधन और मशीनें, सभी किस्म की और उनके पुरजे।	45.	40	हस्तात् से प्रशमन या पूर्णतः बना हुआ हस्तात् का फर्नीचर चाहे वह सामंजित दशा में हो या असमंजित दशा में (किन्तु हस्तात् के बने खनिदार कोणों और चैनलों को छोड़कर)।
			46.	41	आउट काक, चाहे उनमें वाशर या अन्य फिटिंग हो या न हो।
			47.	42	पेकिंग के लिए बोरी रोक बक्कन, सभी किस्म के, चाहे उनमें वाशर या अन्य फिटिंग हो या न हो।
			48	44	घड़िया, दीवाल घड़ियां और मेज घड़ियां, जो मुख्यतया दिन का समय दिखाने के लिए डिजाइन की गई हों।
			49.	45	वजन का अधधारण करने के लिए मशीनें और उपकरण जिसमें तोल पटल के पुरजे भी हैं।
			50.	46	धातुओं के आधान जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।
			51.	48	आधारी धातु के सेफ, तिजोरी बक्से, तिजोरी कक्ष के अन्तर और तिजोरी कक्ष के बरवाजे, (चाहे उनमें बरवाजों के फेंम हो या न हो) और रोकड़ और विशेष रखने वाले बक्से और वैसे ही बीजे।

1	2	3
52. 49	रोलिंग बेयरिंग, अर्थात्, बाल या रोलर बेयरिंग, सभी किस्म के, (सूट्टु इस्पात रेलों से बने बेयरिंगों को छोड़कर)।	
53. 50	वैल्विंग इलेक्ट्रोड, सभी किस्म के।	
54. 51	लेपित अपवर्षी और शाण चक्र।	
55. 51क	ओज़ार	
56. 52	आधारी धातु या उनकी मिश्र धातुओं के शूरीदार बोल्ट और नट तथा स्कू।	
57. 53	जिप अथवा सरकवा बन्धक और उनके पुरजे।	
58. 54	प्रेसर कुकर।	
59. 55	वैक्यूम प्लास्क तथा अन्य वैक्यूम बरतन और उनके पुरजे।	
60. 56	ताश।	
61. 57	कैफर (कपूर)।	
62. 58	सैन्थिल।	
63. 60	ग्रासजक टेप, सभी किस्म के, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है जिनके अन्तर्गत सेल्युलोज ग्रासजक टेप और पेपर बैक के ग्रासजक टेप भी हैं।	
64. 61	विद्युत् प्रकाश फिटिंग	
65. 62	टंगस्टन, मालीब्डेनम और बेनेडियम जैसी धातुओं के मिन्दरित कार्बाइड के ओज़ारों के टिप, बिना मड़े हुए, किसी भी रूप या आकार में।	
66. 63	तार के रस्से।	
67. 64	कार्बन ब्लैक (जिसके अंतर्गत लेम्प ब्लैक और एसिटिलीन ब्लैक भी हैं)।	
68. 65	रबड़ प्रसंस्करण रसायन।	
69. 66	स्थायी चुम्बक।	

[सं० 71/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed (hereinafter referred to as the "specified goods"), and falling under such Item Number of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, in respect of the first clearances of such excisable goods for home consumption up to an aggregate value not exceeding rupees five lakhs and cleared on or after the 1st day of April in any financial year, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to the following conditions, namely :—

(a) the exemption contained in this notification shall not be applicable to a manufacturer—

- (i) during the financial year 1978-79, if the aggregate value of the specified goods cleared, if any, by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the period commencing on the 1st day of April, 1977 and ending

on the 28th day of February, 1978, had exceeded Rs. 13.75 lakhs; and

- (ii) during financial years subsequent to the financial year 1978-79, if such clearances, if any, of the specified goods, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs;

(b) the value of clearances made during any financial year shall be calculated separately for all the goods specified in column (3) of the said Table against each serial number specified in the corresponding entry in column (1) thereof;

(c) where a factory producing the specified goods is run at different times of any financial year by different manufacturers, the value of the specified goods so cleared from such factory in any such year at nil rate of duty shall not exceed rupees five lakhs.

Explanation I—For the purposes of this notification, the expression "value" means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation II—For the purposes of this notification—

(a) "mill board" means any unbleached homogeneous board, having a thickness exceeding 0.50 millimetre and made out of mixed waste papers with or without screenings and mechanical pulp but without any colouring matter being added thereto;

(b) "straw board" means a board made wholly or predominantly from partially cooked unbleached straw or bagasse or grasses or other agricultural residues or a mixture of these; provided that—

(i) the quantity of any other material used shall not exceed one third in weight of the total weight of the ingredients, and

(ii) such board shall not be specially compressed and shall not have any paper pasted on either surface.

Explanation III—For the purposes of determining the value of clearances under this notification—

(i) in respect of goods of the description specified against serial number 6 of the said Table,—

(a) the value of goods on which duty is exempted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 114/73-Central Excises, dated the 30th April, 1973, shall not be taken into account;

(b) the value of the said goods manufactured without the aid of power shall not be taken into account;

(ii) in respect of goods of the description specified against serial number 12 of the said Table, the value of perfumed hair oils mentioned at serial number 2 of the Table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 63/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, on which duty is exempted subject to the conditions specified therein, shall not be taken into account;

(iii) in respect of the goods of the description specified against serial number 25 of the said Table, where a manufacturer gets his Chinaware or Porcelainware or both fired in a kiln belonging to or maintained by a Pottery Development Centre run by the Central Government or a State Government or by the Khadi and Village Industries Commission, the value of the Chinaware or Porcelainware or both, belonging to the said manufacturer and fired in such a kiln, shall be taken into account;

(iv) in respect of goods of the description specified against serial number 37 of the said Table, the value of goods on which duty is exempted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 33/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, shall not be taken into account;

(v) in respect of goods of the description specified against serial number 38 of the said Table, the value of goods on which duty is exempted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 51/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970, shall not be taken into account;

(vi) in respect of goods of the description specified against serial number 41 of the said Table, the value of goods on which duty is exempted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 99/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, shall not be taken into account;

(vii) in respect of goods of the description specified against serial number 45 of the said Table, the value of the items of furniture on which duty is exempted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 91/68-Central Excises, dated the 30th April, 1968, and the value of the parts of steel furniture shall not be taken into account;

(viii) in respect of goods of the description specified against serial number 50 of the said Table, the value of goods on which duty is exempted under the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 53/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970 and 94/70-Central Excises, dated the 1st May, 1970, shall not be taken into account;

(ix) in respect of goods of the description specified against serial number 51 of the said Table, the value of goods on which duty is exempted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 99/70-Central Excises, dated the 1st May, 1970, shall not be taken into account.

2. Nothing contained in this notification shall, in so far as goods of the description specified against serial number 41 of the said Table, apply to manufacturers of such goods who avail of the exemption under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 101/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, or under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 153/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1978.

TABLE

Sl. No.	Item No. in the First schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944	Description
(1)	(2)	(3)
1.	1A	Confectionery.
2.	1B	Prepared or Preserved Foods.
3.	1C	Food Products.
4.	1D	Aerated Waters.
5.	12	Vegetable Non-essential Oils.
6.	14	Pigments, Colours, Paints, Enamels, Varnishes, Blacks and Cellulose Lacquers.
7.	14BB	Sodium Silicate.
8.	14C	Glycerine.

(1)	(2)	(3)
9.	14D	Synthetic Organic Dyestuffs (including pigment dyestuffs) and Synthetic Organic Derivatives used in any dyeing process.
10.	14DD	Synthetic Organic Products of a kind used as Organic Luminophores; products of the kind known as optical bleaching agents, substantive to the fibre.
11.	14E	Patent or Proprietary Medicines.
12.	14F	Cosmetics and Toilet Preparations.
13.	14FF	Tooth-Paste (including Dental Cream).
14.	14G	Nitric, Hydrochloric and Sulphuric Acids (including fuming acids and anhydrides thereof), all sorts.
15.	14H	Gases, including liquified or solidified gases.
16.	15	Soap.
17.	15AA	Organic Surface-Active Agents (other than soap); surface active preparations and washing preparations, whether or not containing soap.
18.	15C	Starch (including Dextrin and other forms of modified starch), all sorts.
19.	15D	Polishes and creams for footwear, furniture, floors, leather, metals, motor vehicles and glass; securing powders and pastes.
20.	16A	Rubber Products.
21.	16B	Plywood, Block-board, Laminboard, Batten-board, Hard or Soft wall boards or insulating board and veneered panels; whether or not containing any material other than wood; cellular wood panels; building boards of wood pulp or vegetable fibre, whether or not bonded with natural or artificial resins or with similar binders; and artificial or re-constituted wood being wood shavings, wood chips, saw dust, wood flour or other ligneous waste, agglomerated with natural or artificial resins or other organic binding substances, in sheets blocks, boards or the like.
22.	17	(i) Polyethylene coated paper, polyethylene coated board, waxed paper, waxed board, polyethylene sandwiched paper, polyethylene sandwiched board, and bituminised water proof paper or paper board obtained by bonding a layer of paper or paper board and another layer of paper or paper board with bitumen. (ii) Mill-board and straw board, in the manufacture of which drying process, commonly known as sun-dry (sun-drying) process, has been employed.
23.	22E	Typewriter and similar Ribbons, whether or not on spools.
24.	23A	Glass and glassware.
25.	23B	Chinaware and Porcelainware, all sorts.
26.	23C	Asbestos-Cement Products, all sorts, including flat and corrugated sheets, pipes and tubes and tiles.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
27.	28A	Electrical Stampings and Laminations, all sorts.	57.	53	Zip or Slide Fastners and parts thereof.
28.	29	Internal Combustion Engines, all sorts.	58.	54	Pressure Cookers.
29.	29A	Refrigerating and Air-conditioning Appliances and Machinery, all sorts, and parts thereof.	59.	55	Vacuum Flasks and other vacuum vessels and parts thereof.
30.	30	Electric Motors, all sorts; and parts thereof.	60.	56	Playing Cards.
31.	30A	Power Driven Pumps (including motor pumps, turbo-pumps and monobloc pumpsets) for liquids, whether or not fitted with measuring devices.	61.	57	Camphor.
32.	30B	Motor Starters.	62.	58	Menthol.
33.	31	Electric Batteries and Parts thereof.	63.	60	Adhesive Tapes all sorts not elsewhere specified, including cellulose adhesive tapes and paperbacked adhesive tapes.
34.	32	Electric Lighting Bulbs and Fluorescent Lighting Tubes.	64.	61	Electric Lighting Fittings.
35.	33	Electric Fans including Regulators for Electric fans, all sorts.	65.	62	Tool Tips, if any form or size, unmounted, of sintered carbides of metals such as Tungsten, Molybdenum and Vanadium.
36.	33B	Electric Wires and Cables, all sorts not otherwise specified.	66.	63	Wire Ropes.
37.	33C	Domestic Electrical Appliances, not elsewhere specified.	67.	64	Carbon Black (including Lamp Black and Acetylene Black).
38.	33D	Office Machines and apparatus, not elsewhere specified.	68.	65	Rubber Processing Chemicals.
39.	33E	Electricity Supply Meters.	69.	66	Permanent Magnets.
40.	34	Trailers.	[No. 71/78]		
41.	34A	Parts and Accessories of Motor Vehicles and Tractors, including Trailers.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क		
42.	34B	Works Trucks, mechanically propelled used for short distance transport or handling of goods.	<p>सांकांनि० 148(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं 199/75 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 8 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—</p> <p>1 उक्त अधिसूचना में,—</p> <p>(क) सारणी में, क्रम सं० 3, 4 और 5 और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएँगी ;</p> <p>(ख) पैरा 2 निकाल दिया जाएगा।</p> <p>2 अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होगी।</p> <p style="text-align: right;">[सं० 72/78]</p>		
43.	37B	Cinematograph Projectors and parts thereof.	CENTRAL EXCISES		
44.	37C	Photographic Apparatus and goods.	<p>G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 199/75-Central Excises, dated the 8th September, 1975, namely :—</p> <p>1. In the said notification, —</p> <p>(a) in the Table, Serial Nos. 3, 4 and 5 and the entries relating thereto, shall be omitted;</p> <p>(b) paragraph 2 shall be omitted.</p> <p>2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1978.</p> <p style="text-align: right;">[No. 72/78]</p>		
45.	40	Steel furniture made partly or wholly of steel, whether in assembled or unassembled condition (but excluding slotted angles and channels made of steel)	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क		
46.	41	Crown Corks, with or without washers or other fittings.	<p>सांकांनि० 149(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा</p>		
47.	42	Pilfer Proof Caps for Packaging, all sorts, with or without washers or other fittings.			
48.	44	Watches, clocks, and Time pieces, primarily designed to show the time of day.			
49.	45	Machinery and Appliances for determination of weight including parts of weigh bridges.			
50.	46	Metal containers not elsewhere specified.			
51.	48	Safes, Strong Boxes, Strong-room linings and Strong-room doors (whether or not with door frames), and cash and deed boxes and the like, of base metal.			
52.	49	Rolling Bearings, that is to say, Ball or Roller Bearings, all sorts (except Ball Bearings made with mild steel races).			
53.	50	Welding Electrodes, all sorts.			
54.	51	Coated Abrasives and Grinding Wheels.			
55.	51A	Tools.			
56.	52	Bolts and Nuts, Threaded or Tapped, and screws, of base metal or alloys thereof.			

विभाग) की अधिसूचना सं० 42/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपावृद्ध सारणी में, क्रम सं० 4 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी।

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 73/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 42/76-Central Excises, dated the 1st March, 1976, namely :—

In the Table annexed to the said notification, Serial No. 4 and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1978.

[No. 73/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 150(प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 218/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 को अधिग्रहण करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1941 (1911 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11 के अन्तर्गत आने वाले और विद्युत की सहायता से विनिर्मित वर्णक, रंग, पेन्ट, एनेमल, वार्निश, कालिख और सेम्लोस लैकर (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् “उक्त माल” कहा गया है) की, जिनका सकल मूल्य एक करोड़ रुपये से अनधिक तक हो और जिनकी निकासी गृह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन या उसके पश्चात् किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से की जाती है, उन पर उद्घाटनीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देती हैं जितना दो प्रतिशत मूल्यानुसार के बराबर है यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखाने से गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त माल का, यदि कोई हो, कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक रहा हो।

परन्तु यह तब जब उक्त माल किसी ऐसे औद्योगिक एकक में विनिर्मित किया जाता है जिसकी वास्तव में अधिकारी का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलैक्टर की पक्ष से कम न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में जिसमें निकासीगत उक्त माल का विनिर्माण किया गया है सम्पादित केवल संयंत्रों और मशीनों पर समय-समय किए गए पूँजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण-1:—किसी पूँजी विनिधान के मूल्य का अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे विनिधान के उस समय के प्रकृत मूल्य को गणना में लिया जाएगा जब ऐसा विनिधान किया गया था।

स्पष्टीकरण-2:—इस अधिसूचना के अधिनिकाशियों के मूल्य को अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत सम्मिलित उस माल का मूल्य गणना में नहीं लिया जाएगा जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 114/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1973 के अधीन शुल्क से छूट दी गई है।

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 74/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 150(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 218/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977, the Central Government hereby exempts pigments colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers, manufactured with the aid of power (hereinafter in this notification referred to as “the said goods”) and falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto an aggregate value not exceeding rupees one crore, cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to two per cent ad valorem, if the aggregate value of the said goods cleared, if any, for home consumption from one or more factories during the preceding financial year had exceeded rupees fifteen lakhs :

Provided that the said goods are manufactured in an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery only installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees ten lakhs.

Explanation I :—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of such investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

Explanation II :—For the purposes of determining the value of clearances under this notification, the value of goods falling under Item No. 14 of the said First Schedule, on which duty is exempted under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 114/73-Central Excises, dated the 30th April, 1973, shall not be taken into account.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1978.

[No. 74/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 151(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 299/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 अक्टूबर, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्—

“परन्तु यह योग कि इस अधिसूचना के अधीन दी गई छूट ऐसे विनिर्माता का,

(क) 1978-79 के वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं होगी यदि ऐसे वीर्यग का, यदि कोई हो, जिनकी निकासी गृह उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल, 1977 को प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखाने से की जाती है, सकल मूल्य 13.75 लाख रुपये से अधिक हो गया हो; और

(ख) वित्तीय वर्ष 1978-79 के बाद के वित्तीय वर्षों के दौरान नहीं लागू होगी यदि ऐसे वीर्यगों की, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी निकासी यदि कोई हो, पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो गई हो।

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त होगी।

[सं० 75/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 299/77-Central Excise, dated the 15th October, 1977, namely :—

In the said notification, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided further that the exemption under this notification shall not be applicable to a manufacturer—

(a) during the financial year 1978-79, if the aggregate value of such bearings, if any, cleared by him or on his behalf, for home consumption from one or more factories, during the period commencing on 1st day of April, 1977 and ending on 28th day of February, 1978, had exceeded Rs. 13.75 lakhs; and

(b) during the financial years subsequent to the financial year 1978-79, if such clearances, if any, of such bearings, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1978.

[No. 75/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांख्यिकी 152(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग या राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग, जैसी भी स्थिति हो, की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विरुद्धित करती है, अर्थात् :—

1. अधिसूचना सं० 67/60-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1960।
2. अधिसूचना सं० 68/60-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1960।
3. अधिसूचना सं० 35/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1962।
4. अधिसूचना सं० 12/63-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जनवरी, 1963।
5. अधिसूचना सं० 31/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1966।
6. अधिसूचना सं० 151/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अक्टूबर, 1966।
7. अधिसूचना सं० 144/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1968।
8. अधिसूचना सं० 105/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1969।
9. अधिसूचना सं० 92/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970।
10. अधिसूचना सं० 97/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970।
11. अधिसूचना सं० 98/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970।
12. अधिसूचना सं० 1/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 जनवरी, 1971।
13. अधिसूचना सं० 33/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1971।
14. अधिसूचना सं० 65/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।
15. अधिसूचना सं० 98/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।
16. अधिसूचना सं० 102/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।
17. अधिसूचना सं० 104/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।
18. अधिसूचना सं० 105/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।
19. अधिसूचना सं० 109/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।
20. अधिसूचना सं० 113/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।
21. अधिसूचना सं० 155/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971।
22. अधिसूचना सं० 158/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971।
23. अधिसूचना सं० 85/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।
24. अधिसूचना सं० 97/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।
25. अधिसूचना सं० 73/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973।
26. अधिसूचना सं० 76/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973।
27. अधिसूचना सं० 23/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974।
28. अधिसूचना सं० 86/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1974।
29. अधिसूचना सं० 38/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975।

30. अधिसूचना सं० 137/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 मई, 1975।
31. अधिसूचना सं० 95/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976।
32. अधिसूचना सं० 153/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1976।
33. अधिसूचना सं० 185/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 जून, 1976।
34. अधिसूचना सं० 216/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
35. अधिसूचना सं० 223/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
36. अधिसूचना सं० 238/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
37. अधिसूचना सं० 239/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
38. अधिसूचना सं० 240/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
39. अधिसूचना सं० 241/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
40. अधिसूचना सं० 242/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
41. अधिसूचना सं० 282/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 अगस्त, 1977।
42. अधिसूचना सं० 293/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 सितम्बर, 1977।

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1978 को प्रबल होगी।

[सं० 76/78]

आर० के० चन्द्रा, अवर सचिव

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue or Department of Revenue and Insurance) or the Department of Revenue and Banking, as the case may be, namely :—

1. Notification No. 67/60-Central Excises, dated the 20th April, 1960.
2. Notification No. 68/60-Central Excises, dated the 20th April, 1960.
3. Notification No. 35/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962.
4. Notification No. 12/63-Central Excises, dated the 26th January, 1963.
5. Notification No. 31/66-Central Excises, dated the 1st March, 1966.
6. Notification No. 151/66-Central Excises, dated the 1st October, 1966.
7. Notification No. 144/68-Central Excises, dated the 13th July, 1968.
8. Notification No. 105/69-Central Excises, dated the 3rd April, 1969.
9. Notification No. 92/70-Central Excises, dated the 1st May, 1970.
10. Notification No. 97/70-Central Excises, dated the 1st May, 1970.
11. Notification No. 98/70-Central Excises, dated the 1st May, 1970.
12. Notification No. 1/71-Central Excises, dated the 2nd January, 1971.
13. Notification No. 33/71-Central Excises, dated the 1st April, 1971.
14. Notification No. 65/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
15. Notification No. 98/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
16. Notification No. 102/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
17. Notification No. 104/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
18. Notification No. 105/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
19. Notification No. 109/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
20. Notification No. 114/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
21. Notification No. 155/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.

22. Notification No. 158/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.
23. Notification No. 85/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
24. Notification No. 97/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
25. Notification No. 73/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
26. Notification No. 76/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
27. Notification No. 23/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974.
28. Notification No. 86/74-Central Excises, dated the 1st May, 1974.
29. Notification No. 38/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.
30. Notification No. 137/75-Central Excises, dated the 19th May, 1975.
31. Notification No. 95/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
32. Notification No. 153/76-Central Excises, dated the 1st May, 1976.
33. Notification No. 185/76-Central Excises, dated the 5th June, 1976.
34. Notification No. 216/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
35. Notification No. 223/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
36. Notification No. 238/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
37. Notification No. 239/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
38. Notification No. 240/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
39. Notification No. 241/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
40. Notification No. 242/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
41. Notification No. 282/77-Central Excises, dated the 16th August, 1977.
42. Notification No. 293/77-Central Excises, dated the 15th September, 1977.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1978.

[No. 76/78]

R. K. CHANDRA, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 153 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 108/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1970 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1941 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29-क की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले कक्ष वातानुकूलन यंत्रों को जो तैयार सम्पूज्यित यूनिटों, अर्थात् पैकेज किन्ड के वातानुकूलन यंत्रों और खिड़की वातानुकूलन यंत्रों के रूप में साधारणतया बेचे जाते हैं या बेचे जाने के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देना है जितना बीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो, किन्तु यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्—

- (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर का यह समाधान हो जाए कि ऐसे वातानुकूलन यंत्र, इनमें उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी स्थापन में प्रयोग में लाए जाने के लिए अपेक्षित है,
- (2) विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर को ऐसे स्थापन के, जिसकी वातानुकूलन यंत्र अपेक्षित है, यथास्थिति,

स्वामी प्रथमा मुख्य कार्यपालक का इस आशय का एक लिखित वचन दे कि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के समुचित अधिकारी का—

(क) विनिर्माता द्वारा ऐसे वातानुकूलन यंत्रों की, शुल्क के सदाय के पश्चात्, निकासी की तारीख में एक मास के भीतर या ऐसी बर्खास्त गरी अवधि के भीतर जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर अनुज्ञात करे, यह समाधान कर देगा कि वस्तुनः वातानुकूलन यंत्रों का प्रयोग उस स्थापन में किया जाता है और व्यवस्थित होने पर वह शुल्क का वह भाग अदा करेगा जिसे इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त है ; और

(ख) यह समाधान कर देगा कि वातानुकूलन यंत्रों को उस तारीख में, जिस तारीख को वातानुकूलन यंत्र ऐसे स्थापन में लगाए जाते हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर पुनः बेचा नहीं जाएगा और पूर्वोक्त रूप से दिए गए वचन की किसी भी शर्त का भंग होने पर वह विनिर्माता की ओर से शुल्क का वह भाग अदा करेगा जिसे इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त है ; और

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अध्याय 10 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है ।

अनुसूची

1. कम्प्यूटर कक्ष
2. अनुसंधान और परख प्रयोगशालाएं ।
3. पशु गृह ।
4. टेलीफोन एक्सचेंज ।
5. प्रसारण स्टूडियो ।
6. ट्रालर ।
7. बाघ ।
8. खान और सुरंगें ।
9. थर्मल और हाइड्रल पावर स्टेशन ।
10. मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा के तकनीकी भवन ।
11. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या लोक धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाया जाने वाला कोई अस्पताल ।
12. कोई कारखाना ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “कारखाना” से कोई परिचय, जिसके अन्तर्गत उसकी वे प्रसीमाएं भी हैं, जहां कोई मास विनिर्मित किया जाता है या भण्डार में रखा जाता है, अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा परिचय नहीं आता जिसका प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है ।

[सं० 56/78]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 108/70-Central Excises, dated 1st May, 1970, the Central Government hereby exempts room air-conditioners which are ordinarily sold or offered for sale as ready assembled units, namely, package type air-conditioners and window air-conditioners falling under sub-item (2) of Item No. 29-A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twenty per cent. *ad valorem*, subject to the following conditions, namely :—

- (i) the Collector of Central Excise is satisfied that such air-conditioners are required for use in any

of the establishments specified in the Schedule here-to annexed;

- (ii) the manufacturer furnishes to the Collector of Central Excise a written undertaking by the owner, or, as the case may be, the Chief Executive of the establishment in respect of which such air-conditioners are required, that he will satisfy the proper officer of Central Excise—

(a) within one month of the date of clearance, of such air-conditioners by the manufacturer, after payment of duty, or such extended period as the Collector of Central Excise may allow, that the air-conditioners are actually used in such establishment and, in default, to pay the portion of the duty which is exempt under this notification; and

(b) the air-conditioners shall not be resold within a period of five years from the date the air-conditioners are installed in such establishment, and in the event of breach of any of the terms of the undertaking aforesaid, he shall pay, on behalf of the manufacturer, the portion of the duty which is exempt under this notification; and

- (iii) the procedure specified in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

SCHEDULE

1. Computer rooms.
2. Research and test laboratories.
3. Animal Houses.
4. Telephone exchanges.
5. Broadcasting studios.
6. Trawlers.
7. Dams.
8. Mines and Tunnels.
9. Thermal and Hydel Power Stations.
10. Technical buildings of Military Engineering Service.
11. Any hospital run by the Central Government, a State Government, a Local Authority or a Public Charitable Institution.
12. Any factory.

EXPLANATION.—For the purposes of this notification, "factory" means any premises including the precincts thereof where any goods are manufactured or are stored but does not include any premises which are used for other purposes.

[No. 56/78]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नांकांनं 154(ख).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 55/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपावृद्ध अनुसूची में,—

(क) मद सं० 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि निकाल दी जाएगी ;

(ख) मद 15 के स्थान पर, निम्नलिखित सब रखी जाएगी, अर्थात्—

"13 मुद्रण उद्योग के वे सभी उत्पाद जिनमें समाचारपत्र और मुद्रित पत्र-पत्रिकाएं भी हैं",

(ग) मद 17 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मदे रखी जाएगी, अर्थात्—

"18 कीटनाशी, पीड़कनाशी, अपतृणनाशी और कवकनाशी ;

19 सभी औषधियां, दवाएं, भेषजक और औषधि-अन्तर्वर्ती जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।"

[सं० 62/78]

जी०के० पिल्ले, अवर सचिव

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 55/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification,—

(a) item 2 and the entry relating thereto shall be omitted ;

(b) for item 13, the following item shall be substituted, namely :—

"13. All products of the printing industry including newspapers and printed periodicals";

(c) after item 17 and the entry relating thereto, the following items shall be inserted, namely :—

"18. Insecticides, Pesticides, Weedicides and Fungicides ;

19. All drugs, medicines, pharmaceuticals and drug-intermediates not elsewhere specified."

[No. 62/78]

G. K. PILLAI, Under Secy.